



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013-आषाढ़ 14, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 05 जून, 2013

क्र. 04-02/195/यो.व.रू./1587.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67 (2) एवं धारा 176 (2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्च दाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) नाम:—ये परियोजनायें 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों, उपकेन्द्रों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण:—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

(I) 132 केवी पारेषण लाइनें :

1. बड़वाहा (220 केवी)—किशनगढ़ 132 केवी डीसीएसएस लाईन प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र किशनगढ़ हेतु, लम्बाई-57 कि.मी., अनुमानित लागत-2995.66 लाख रु.
2. 132 केवी छिंदवाड़ा-सारणी लाइन की लीलो लाइन प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र उमरेठ हेतु, लम्बाई-1 कि.मी., अनुमानित लागत-160.00 लाख रु.
3. 132 केवी गौतमपुरा-देपालपुर (जिला उज्जैन) डीसीएसएस लाइन, लम्बाई-19 कि.मी., अनुमानित लागत-661.30 लाख रु.

(II) 132 केवी उपकेन्द्र कार्य :**नये उपकेन्द्र की स्थापना—**

1. 132 केवी उपकेन्द्र किशनगढ़ (जिला देवास) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-938.72 लाख रु.
2. 132 केवी उपकेन्द्र उमरेठ (जिला छिंदवाड़ा) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1076.10 लाख रु.

(III) कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 58.32 करोड़ रु. है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

के. के. सक्सेना,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स एवं आई.टी.)

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर.

(181-बी.)

नाम परिवर्तन

मुझे डॉक्टर निरूपा वर्मा पिता श्री डी. एल. वर्मा, निवासी—एफ-8, जिला चिकित्सालय केम्पस, नीमच, वर्तमान निवास—विशेष न्यायाधीश, शासकीय आवास, सीआरपीएफ रोड, ऑफिसर्स कॉलोनी, नीमच का विवाह दिनांक 23 अप्रैल, 2013 को स्थान होटल सुंदरम 13 सिटी रोड, नीमच में श्री वरूण झा पिता श्री वृन्दावन लाल झा, निवास—विशेष न्यायाधीश, शासकीय आवास, सीआरपीएफ रोड, ऑफिसर्स कॉलोनी, नीमच के साथ सम्पन्न हुआ है.

विवाह उपरांत मैं “कु. (डॉक्टर) निरूपा वर्मा” के स्थान पर “श्रीमती (डॉक्टर) निरूपा वरूण झा” के नाम से अपनी पहचान स्थापित करना चाहती हूँ.

अतएव सर्व-साधारण एवं सम्बन्धित सूचित हो कि मुझे “श्रीमती (डॉक्टर) निरूपा वरूण झा” के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कुमारी (डॉक्टर) निरूपा वर्मा)

पुत्री श्री डी. एल. वर्मा,
एफ-8, जिला चिकित्सालय केम्पस,
नीमच (म. प्र.).

(186-बी.)

नया नाम :

(निरूपा वरूण झा)

निवास—विशेष न्यायाधीश आवास,
सी. आर. पी. एफ. रोड, ऑफिसर्स कॉलोनी,
नीमच (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मनीष कुमार द्विवेदी पुत्र श्री मानिक लाल द्विवेदी, पता—एम.आई.जी. 154, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लहारपुर, भोपाल-43 ने अपना नाम बदलकर मनीष द्विवेदी कर लिया है, अब मुझे इस नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मनीष कुमार द्विवेदी)

(187-बी.)

नया नाम :

(मनीष द्विवेदी)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्टार ऑटोमोबाइल्स, सतना के भागीदारी से भागीदार श्री मुसाफिर सिंह तनय श्री वासुदेव सिंह स्वेच्छा से 1-4-2013 से पृथक् हो गये हैं तथा फर्म में श्री रेवत सिंह तनय श्री रमेश सिंह नये भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं। अब फर्म स्टार ऑटोमोबाइल्स में निम्न भागीदार कार्यरत हैं :-

1. श्री रमेश सिंह तनय श्री दशरथ सिंह
2. श्री दुष्यन्त सिंह तनय श्री रमेश सिंह,
3. श्री रेवत सिंह तनय श्री रमेश सिंह,
4. श्रीमती रीना सिंह पत्नी श्री रमेश सिंह.

(182-बी.)

भवदीय
रमेश सिंह,
(भागीदार)
फर्म मे. स्टार ऑटोमोबाइल्स,
मुख्तियार गंज, सतना (मध्यप्रदेश.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एम. सी. मोटर्स के भागीदार श्री मुसाफिर सिंह तनय श्री वासुदेव सिंह दिनांक 1-4-2013 को फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा श्री रेवत सिंह तनय श्री रमेश सिंह नये भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं। इस प्रकार अब उक्त फर्म में कार्यरत भागीदार निम्नानुसार हैं :-

1. श्री रमेश सिंह (HUF) कर्ता रमेश सिंह
2. श्री रेवत सिंह तनय श्री रमेश सिंह,
3. श्रीमती रीना सिंह पत्नी श्री रमेश सिंह.

यह भी सूचित किया जाता है कि नवीन भागीदार फर्म द्वारा फर्म का नाम मे. एम. सी. मोटर्स को परिवर्तन करके फर्म का नया नाम मे. स्टार मोटर्स रखा गया है। अतः सभी व्यक्ति अब फर्म से जो भी व्यवहार करें वह मे. स्टार मोटर्स के ज्ञात नाम से करने का कष्ट करें।

(183-बी.)

भवदीय
रमेश सिंह,
(भागीदार)
फर्म : मे. एम. सी. मोटर्स,
नया नाम : मे. स्टार मोटर्स
मुख्तियार गंज, सतना (मध्यप्रदेश.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जय बजरंग बली कन्स्ट्रक्शन एम.आई.जी.-25 दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी श्री हरद्वारी लाल शर्मा, निवासी—चन्सौरिया भवन, ए. बी. रोड, गुलाब बाग, धौलपुर (राज.) को अपनी साझेदारी फर्म में दिनांक 01-04-2013 को हटा दिया गया है जो भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेनदेन नहीं रहेगा और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

मेसर्स जय बजरंग बली कन्स्ट्रक्शन.,
राधेश्याम सिंघल,
पार्टनर.

(184-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स भारती बिल्डिङकॉन, सी-3, गोविन्दपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म संशोधन कर श्री उदय प्रताप शर्मा पुत्र स्व. श्री राम चरण लाल शर्मा, निवासी—ए-46, गोविन्दपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेनदेन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी

फर्म में 27-05-2013 को संशोधन कर नवीन साझेदार श्रीमती ऋचा राजौरिया पति श्री विकास राजौरिया, निवासी—ए-132, सिसोदिया कॉलोनी, गुना (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मेसर्स भारती बिल्डिङकॉन,

अजय शर्मा,

सी-3, गोविन्दपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.).

(185-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 21 जून, 2013

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 24 फरवरी, 2013 (रविवार)

वि. क्र. 101/14/2013/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2012/01 अक्टूबर, 2012 ऑन लाईन आवेदन अंतिम तिथि 23 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/03/परीक्षा/2012/22 अक्टूबर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/03/परीक्षा/2012/03 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 03/03/परीक्षा/2012/19 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 04/03/परीक्षा/2012/20 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 05/03/परीक्षा/2012/01 अप्रैल, 2013 एवं शुद्धि-पत्र क्रमांक 06/03/परीक्षा/2012/17 जून, 2013 के अंतर्गत कुल 400 पदों हेतु (अनारक्षित-195, अनुसूचित जाति-69, अनुसूचित जनजाति-74, अन्य पिछड़ा वर्ग-62) (कुल पदों में विकलांग-13 एवं भूतपूर्व सैनिक-15 सम्मिलित हैं). राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 24 फरवरी, 2013 (रविवार) दो सत्रों में प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं अपराह्न 2.00 बजे से 4.00 बजे तक मध्यप्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञापित क्रमांक 101/14/2013/अनु.-10, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है. इस परीक्षा में 3,95,649 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे व इस परीक्षा में कुल 3,10,451 आवेदक उपस्थित हुए. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 हेतु 6570 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. इनमें से अनारक्षित-3214, अनुसूचित जाति-1136, अनुसूचित जनजाति-1151, अन्य पिछड़ा वर्ग-1069 (कुल अर्ह आवेदकों में विकलांग-198 (सम्मिलित), भूतपूर्व सैनिक-178 एवं समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक (सम्मिलित) हैं. (भूतपूर्व सैनिक वर्ग में अजा में 35 व अजजा में 13 अर्ह भूतपूर्व सैनिक कम प्राप्त हुए हैं) यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रामाणिक मानी जाएगी.

2. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2012 में अर्ह आवेदकों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2012 की लिखित परीक्षा दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.

3. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. परीक्षा के समय इसकी प्रतिदिन जाँच की जावेगी. मूल पहचान-पत्र प्रवेश-पत्र के साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी.

4. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम.पी. ऑन लाईन से दिनांक 01 जुलाई, 2013 से 25 जुलाई, 2013 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 29 जून, 2013 तक जारी कर दी जावेगी.

5. आवेदन-पत्र में त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञापित द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

व्ही. के. जैन,
अवर सचिव.

इन्दौर, दिनांक 21 जून, 2013

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 24 फरवरी, 2013 (रविवार)

वि. क्र. 101/14/2013/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2012/01 अक्टूबर, 2012 ऑन लाईन आवेदन अंतिम तिथि 23 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/03/परीक्षा/2012/22 अक्टूबर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/03/परीक्षा/2012/03 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 03/03/परीक्षा/2012/19 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 04/03/परीक्षा/2012/20 नवम्बर, 2012, शुद्धि-पत्र क्रमांक 05/03/परीक्षा/2012/01 अप्रैल, 2013 एवं शुद्धि-पत्र क्रमांक 06/03/परीक्षा/2012/17 जून, 2013 के अंतर्गत कुल 400 पदों हेतु राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2012, परीक्षा दिनांक 24 फरवरी, 2013 (रविवार) दो सत्रों में प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं अपराह्न 2.00 बजे से 4.00 बजे तक मध्यप्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी.

उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के पन्द्रह गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं. कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या 6570 है. इनमें से श्रेणीवार निम्नानुसार अर्ह संख्या हैं :-

श्रेणी	विज्ञापित पद-400	अर्ह संख्या-6570 (इनमें श्रेणीवार समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक, विकलांग एवं भू.पू.सै. भी सम्मिलित हैं.)
अनारक्षित	195	3214
अनुसूचित जाति	069	1136
अनुसूचित जनजाति	074	1151
अन्य पिछड़ा वर्ग	062	1069

कुल अर्ह आवेदकों 6570 में विकलांग अर्ह आवेदक-198 सम्मिलित हैं एवं भूतपूर्व सैनिक अर्ह आवेदक-178 सम्मिलित हैं.

भूतपूर्व सैनिक वर्ग में अजा में 35 एवं अजजा में 13 कुल-48 अर्ह भूतपूर्व सैनिक कम प्राप्त हुये हैं.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये 6570 आवेदकों के रोल नंबर निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION STATE CIVIL SERVICE PRE EXAM 2012

EXAM RESULT-ROLL NO. WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1	100184	19	100817	37	101430	55	102016	73	102646
2	100188	20	100845	38	101440	56	102053	74	102762
3	100206	21	100853	39	101445	57	102064	75	102834
4	100274	22	100864	40	101461	58	102079	76	102896
5	100290	23	100869	41	101480	59	102095	77	102944
6	100414	24	100939	42	101538	60	102122	78	102960
7	100444	25	100951	43	101567	61	102152	79	103016
8	100473	26	101012	44	101609	62	102214	80	103051
9	100527	27	101013	45	101638	63	102243	81	103106
10	100562	28	101021	46	101667	64	102287	82	103269
11	100580	29	101027	47	101678	65	102328	83	103313
12	100582	30	101102	48	101747	66	102336	84	103471
13	100650	31	101144	49	101755	67	102344	85	103493
14	100674	32	101154	50	101789	68	102505	86	103583
15	100678	33	101215	51	101823	69	102561	87	103590
16	100702	34	101217	52	101902	70	102622	88	103656
17	100723	35	101257	53	101962	71	102632	89	103696
18	100744	36	101401	54	101985	72	102635	90	103713

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
91	103730	144	105472	197	107433	250	109921	303	111843
92	103757	145	105474	198	107451	251	109926	304	111860
93	103788	146	105480	199	107455	252	109944	305	111889
94	103800	147	105489	200	107491	253	109950	306	111894
95	103821	148	105550	201	107505	254	109971	307	111934
96	103846	149	105570	202	107514	255	109990	308	111964
97	103861	150	105634	203	107561	256	109993	309	111972
98	103915	151	105646	204	107608	257	110032	310	111975
99	103951	152	105672	205	107639	258	110047	311	112001
100	103976	153	105688	206	107654	259	110121	312	112092
101	104013	154	105690	207	107699	260	110172	313	112093
102	104016	155	105702	208	107781	261	110200	314	112110
103	104056	156	105703	209	107789	262	110252	315	112201
104	104073	157	105714	210	107801	263	110263	316	112207
105	104098	158	105730	211	107824	264	110281	317	112245
106	104119	159	105739	212	107909	265	110319	318	112271
107	104161	160	105767	213	107930	266	110360	319	112276
108	104251	161	105810	214	107940	267	110364	320	112277
109	104281	162	105844	215	107950	268	110370	321	112294
110	104450	163	105955	216	108011	269	110406	322	112310
111	104492	164	105962	217	108024	270	110447	323	112337
112	104615	165	105970	218	108062	271	110499	324	112375
113	104634	166	106100	219	108099	272	110586	325	112388
114	104637	167	106117	220	108117	273	110590	326	112404
115	104648	168	106192	221	108227	274	110668	327	112407
116	104664	169	106236	222	108243	275	110670	328	112451
117	104690	170	106261	223	108258	276	110704	329	112486
118	104768	171	106275	224	108411	277	110770	330	112490
119	104846	172	106302	225	108447	278	110810	331	112678
120	104898	173	106378	226	108468	279	110829	332	112682
121	104933	174	106465	227	108532	280	110909	333	112741
122	104935	175	106513	228	108558	281	110943	334	112781
123	104949	176	106545	229	108580	282	110978	335	112794
124	104974	177	106666	230	108623	283	110998	336	112806
125	104991	178	106736	231	108708	284	111002	337	112936
126	104993	179	106831	232	108726	285	111104	338	112940
127	104996	180	106843	233	108766	286	111137	339	112978
128	105049	181	106884	234	108872	287	111203	340	113013
129	105069	182	106889	235	108891	288	111205	341	113088
130	105076	183	106904	236	108894	289	111308	342	113123
131	105121	184	107019	237	108912	290	111475	343	113142
132	105163	185	107036	238	109039	291	111500	344	113160
133	105210	186	107046	239	109041	292	111515	345	113167
134	105225	187	107049	240	109297	293	111537	346	113185
135	105276	188	107097	241	109362	294	111596	347	113211
136	105320	189	107122	242	109418	295	111630	348	113218
137	105323	190	107138	243	109422	296	111674	349	113256
138	105332	191	107147	244	109505	297	111693	350	113262
139	105345	192	107151	245	109535	298	111728	351	113302
140	105365	193	107173	246	109568	299	111750	352	113304
141	105378	194	107203	247	109645	300	111786	353	113314
142	105412	195	107394	248	109759	301	111788	354	113327
143	105422	196	107395	249	109769	302	111790	355	113407

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
356	113476	409	115467	462	116972	515	118802	568	120490
357	113485	410	115487	463	116977	516	118808	569	120576
358	113518	411	115523	464	117086	517	118815	570	120586
359	113556	412	115568	465	117147	518	118849	571	120652
360	113600	413	115573	466	117155	519	118888	572	120718
361	113725	414	115614	467	117186	520	118933	573	120735
362	113740	415	115620	468	117199	521	118985	574	120776
363	113762	416	115632	469	117205	522	119078	575	120793
364	113781	417	115640	470	117217	523	119108	576	120819
365	113816	418	115691	471	117244	524	119109	577	120937
366	113826	419	115734	472	117249	525	119114	578	120947
367	113884	420	115767	473	117273	526	119137	579	121017
368	113981	421	115783	474	117305	527	119155	580	121094
369	114067	422	115853	475	117379	528	119254	581	121161
370	114087	423	115856	476	117395	529	119295	582	121254
371	114095	424	115858	477	117422	530	119375	583	121364
372	114147	425	115875	478	117453	531	119397	584	121396
373	114150	426	115897	479	117501	532	119399	585	121440
374	114169	427	115904	480	117534	533	119444	586	121468
375	114186	428	115926	481	117544	534	119448	587	121495
376	114221	429	115947	482	117599	535	119473	588	121500
377	114320	430	115990	483	117634	536	119495	589	121513
378	114325	431	116001	484	117651	537	119501	590	121532
379	114403	432	116036	485	117714	538	119548	591	121543
380	114404	433	116075	486	117732	539	119636	592	121597
381	114438	434	116081	487	117733	540	119649	593	121609
382	114449	435	116084	488	117737	541	119665	594	121617
383	114457	436	116089	489	117744	542	119678	595	121649
384	114463	437	116122	490	117825	543	119686	596	121660
385	114477	438	116263	491	117870	544	119704	597	121831
386	114496	439	116333	492	117878	545	119796	598	121944
387	114507	440	116337	493	117880	546	119799	599	121950
388	114520	441	116340	494	117886	547	119816	600	122012
389	114564	442	116342	495	117926	548	119829	601	122071
390	114587	443	116412	496	117929	549	119842	602	122086
391	114589	444	116414	497	117942	550	119865	603	122092
392	114616	445	116422	498	117951	551	119923	604	122185
393	114617	446	116429	499	117972	552	119954	605	122228
394	114640	447	116461	500	118041	553	119956	606	122261
395	114973	448	116470	501	118092	554	119986	607	122287
396	114988	449	116539	502	118116	555	119989	608	122350
397	114992	450	116555	503	118157	556	120075	609	122363
398	115062	451	116574	504	118170	557	120163	610	122379
399	115120	452	116642	505	118226	558	120177	611	122396
400	115145	453	116653	506	118250	559	120238	612	122449
401	115210	454	116708	507	118303	560	120240	613	122457
402	115285	455	116733	508	118304	561	120331	614	122475
403	115309	456	116773	509	118499	562	120345	615	122577
404	115340	457	116832	510	118509	563	120402	616	122636
405	115391	458	116844	511	118511	564	120409	617	122637
406	115412	459	116892	512	118615	565	120454	618	122707
407	115431	460	116909	513	118622	566	120455	619	122746
408	115463	461	116959	514	118672	567	120468	620	122754

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
621	122788	674	125102	727	126678	780	128581	833	130333
622	122800	675	125120	728	126706	781	128593	834	130349
623	122827	676	125134	729	126721	782	128609	835	130355
624	122836	677	125173	730	126735	783	128621	836	130375
625	122861	678	125232	731	126738	784	128652	837	130435
626	122864	679	125249	732	126808	785	128667	838	130456
627	122931	680	125270	733	126914	786	128734	839	130517
628	122965	681	125411	734	126928	787	128745	840	130543
629	122991	682	125447	735	126932	788	128805	841	130547
630	123065	683	125456	736	127062	789	128863	842	130631
631	123074	684	125459	737	127085	790	128898	843	130703
632	123151	685	125491	738	127087	791	128912	844	130717
633	123153	686	125516	739	127095	792	128942	845	130828
634	123235	687	125520	740	127106	793	128966	846	130844
635	123239	688	125528	741	127204	794	128977	847	130900
636	123316	689	125556	742	127215	795	128983	848	130909
637	123364	690	125558	743	127216	796	129067	849	130996
638	123382	691	125575	744	127234	797	129084	850	131031
639	123409	692	125603	745	127354	798	129216	851	131046
640	123731	693	125645	746	127397	799	129295	852	131117
641	123820	694	125664	747	127398	800	129296	853	131151
642	123869	695	125786	748	127511	801	129323	854	131184
643	123884	696	125809	749	127565	802	129353	855	131243
644	123921	697	125823	750	127583	803	129361	856	131293
645	123974	698	125839	751	127588	804	129381	857	131355
646	123999	699	125846	752	127657	805	129397	858	131414
647	124000	700	125905	753	127715	806	129411	859	131432
648	124010	701	125994	754	127734	807	129480	860	131449
649	124120	702	126005	755	127753	808	129487	861	131464
650	124161	703	126080	756	127757	809	129533	862	131549
651	124296	704	126143	757	127773	810	129598	863	131565
652	124363	705	126151	758	127816	811	129645	864	131601
653	124388	706	126182	759	127939	812	129660	865	131611
654	124467	707	126205	760	127951	813	129691	866	131614
655	124495	708	126224	761	128001	814	129706	867	131621
656	124556	709	126226	762	128004	815	129785	868	131637
657	124583	710	126240	763	128007	816	129786	869	131662
658	124588	711	126292	764	128021	817	129802	870	131719
659	124589	712	126319	765	128091	818	129809	871	131797
660	124689	713	126350	766	128117	819	129927	872	131920
661	124695	714	126366	767	128152	820	130020	873	131943
662	124737	715	126393	768	128185	821	130053	874	131945
663	124739	716	126463	769	128195	822	130083	875	131961
664	124740	717	126487	770	128205	823	130164	876	132009
665	124764	718	126502	771	128207	824	130177	877	132046
666	124831	719	126514	772	128259	825	130204	878	132101
667	124858	720	126541	773	128324	826	130240	879	132273
668	124891	721	126544	774	128329	827	130253	880	132300
669	124903	722	126580	775	128357	828	130262	881	132340
670	124968	723	126639	776	128389	829	130283	882	132341
671	125000	724	126661	777	128391	830	130289	883	132348
672	125027	725	126668	778	128482	831	130296	884	132386
673	125031	726	126675	779	128497	832	130297	885	132431

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
886	132453	939	134105	992	135924	1045	137705	1098	140170
887	132477	940	134110	993	135960	1046	137780	1099	140183
888	132479	941	134113	994	135968	1047	137796	1100	140192
889	132495	942	134141	995	135997	1048	137831	1101	140200
890	132507	943	134160	996	136003	1049	137835	1102	140229
891	132559	944	134221	997	136058	1050	137838	1103	140271
892	132591	945	134269	998	136078	1051	137903	1104	140294
893	132594	946	134329	999	136104	1052	137904	1105	140479
894	132646	947	134350	1000	136113	1053	137976	1106	140545
895	132740	948	134364	1001	136150	1054	137978	1107	140553
896	132785	949	134367	1002	136158	1055	138102	1108	140564
897	132840	950	134396	1003	136201	1056	138104	1109	140574
898	132903	951	134398	1004	136221	1057	138126	1110	140614
899	132934	952	134424	1005	136236	1058	138334	1111	140657
900	132944	953	134459	1006	136374	1059	138349	1112	140676
901	132962	954	134470	1007	136434	1060	138411	1113	140689
902	132970	955	134480	1008	136576	1061	138496	1114	140722
903	132976	956	134509	1009	136585	1062	138551	1115	140762
904	133011	957	134563	1010	136629	1063	138586	1116	140843
905	133014	958	134572	1011	136646	1064	138600	1117	140872
906	133039	959	134605	1012	136698	1065	138628	1118	140883
907	133104	960	134636	1013	136726	1066	138642	1119	140892
908	133112	961	134673	1014	136812	1067	138675	1120	140938
909	133129	962	134677	1015	136862	1068	138708	1121	140942
910	133176	963	134734	1016	136879	1069	138733	1122	140954
911	133183	964	134812	1017	136937	1070	138762	1123	140969
912	133184	965	134891	1018	136958	1071	138803	1124	141005
913	133315	966	134928	1019	136965	1072	138836	1125	141067
914	133345	967	134929	1020	136973	1073	138928	1126	141105
915	133366	968	134930	1021	136974	1074	138959	1127	141125
916	133384	969	134932	1022	136979	1075	138987	1128	141141
917	133390	970	135031	1023	136989	1076	138996	1129	141195
918	133393	971	135043	1024	137029	1077	139055	1130	141211
919	133400	972	135069	1025	137050	1078	139111	1131	141247
920	133464	973	135091	1026	137067	1079	139193	1132	141340
921	133498	974	135103	1027	137075	1080	139246	1133	141451
922	133552	975	135158	1028	137086	1081	139262	1134	141489
923	133606	976	135195	1029	137129	1082	139268	1135	141493
924	133628	977	135206	1030	137132	1083	139311	1136	141515
925	133637	978	135224	1031	137210	1084	139410	1137	141521
926	133688	979	135235	1032	137229	1085	139436	1138	141539
927	133725	980	135298	1033	137353	1086	139506	1139	141569
928	133735	981	135321	1034	137356	1087	139524	1140	141717
929	133784	982	135337	1035	137360	1088	139541	1141	141724
930	133814	983	135437	1036	137425	1089	139604	1142	141756
931	133830	984	135471	1037	137431	1090	139777	1143	141766
932	133887	985	135526	1038	137448	1091	139806	1144	141784
933	133906	986	135644	1039	137463	1092	139835	1145	141815
934	133920	987	135711	1040	137489	1093	139845	1146	141837
935	133945	988	135790	1041	137513	1094	139990	1147	141845
936	134051	989	135812	1042	137534	1095	140025	1148	141860
937	134083	990	135852	1043	137637	1096	140031	1149	141878
938	134100	991	135876	1044	137661	1097	140124	1150	141909

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1151	141936	1204	144488	1257	148481	1310	152823	1363	156846
1152	141983	1205	144549	1258	148485	1311	152836	1364	156863
1153	142031	1206	144642	1259	148501	1312	152972	1365	156996
1154	142058	1207	144795	1260	148570	1313	152974	1366	157009
1155	142120	1208	144836	1261	148702	1314	152982	1367	157062
1156	142147	1209	144893	1262	148718	1315	153190	1368	157111
1157	142159	1210	145132	1263	148748	1316	153237	1369	157179
1158	142188	1211	145216	1264	148754	1317	153240	1370	157273
1159	142200	1212	145225	1265	148798	1318	153246	1371	157296
1160	142223	1213	145301	1266	148815	1319	153291	1372	157318
1161	142269	1214	145506	1267	148914	1320	153331	1373	157533
1162	142285	1215	145665	1268	149018	1321	153355	1374	157546
1163	142304	1216	145711	1269	149068	1322	153411	1375	157642
1164	142331	1217	145727	1270	149181	1323	153471	1376	157708
1165	142361	1218	145783	1271	149289	1324	153512	1377	157791
1166	142374	1219	145865	1272	149307	1325	153516	1378	157873
1167	142387	1220	145899	1273	149374	1326	153587	1379	157905
1168	142410	1221	145916	1274	149415	1327	153597	1380	158185
1169	142424	1222	145969	1275	149436	1328	153669	1381	158519
1170	142428	1223	145979	1276	149461	1329	153690	1382	158582
1171	142526	1224	146105	1277	149555	1330	153698	1383	158831
1172	142557	1225	146127	1278	149585	1331	153740	1384	158946
1173	142570	1226	146151	1279	149596	1332	153795	1385	158991
1174	142640	1227	146167	1280	149698	1333	153821	1386	159023
1175	142658	1228	146279	1281	149703	1334	154159	1387	159039
1176	142668	1229	146407	1282	149718	1335	154248	1388	159067
1177	142713	1230	146417	1283	149843	1336	154308	1389	159069
1178	142728	1231	146450	1284	149910	1337	154334	1390	159137
1179	142771	1232	146466	1285	149982	1338	154341	1391	159175
1180	142854	1233	146707	1286	150090	1339	154422	1392	159207
1181	142897	1234	146729	1287	150097	1340	154623	1393	159306
1182	142963	1235	146755	1288	150219	1341	154817	1394	159519
1183	142966	1236	146775	1289	150299	1342	154822	1395	159678
1184	143199	1237	146880	1290	150459	1343	154830	1396	159681
1185	143252	1238	146967	1291	150479	1344	154904	1397	159714
1186	143263	1239	147017	1292	150504	1345	154932	1398	159730
1187	143436	1240	147034	1293	150623	1346	154964	1399	159749
1188	143446	1241	147145	1294	150716	1347	154970	1400	159786
1189	143488	1242	147551	1295	150895	1348	155117	1401	159837
1190	143571	1243	147639	1296	151113	1349	155197	1402	159838
1191	143601	1244	147713	1297	151373	1350	155395	1403	159911
1192	143615	1245	147772	1298	151375	1351	155581	1404	160028
1193	143788	1246	147861	1299	151430	1352	155657	1405	160047
1194	143841	1247	147936	1300	151528	1353	155921	1406	160048
1195	143842	1248	147969	1301	151560	1354	156081	1407	160152
1196	143909	1249	148013	1302	151860	1355	156229	1408	160231
1197	143912	1250	148123	1303	152021	1356	156252	1409	160290
1198	144028	1251	148164	1304	152272	1357	156282	1410	160324
1199	144066	1252	148201	1305	152307	1358	156320	1411	160335
1200	144114	1253	148207	1306	152335	1359	156322	1412	160386
1201	144141	1254	148260	1307	152619	1360	156721	1413	160464
1202	144230	1255	148304	1308	152715	1361	156748	1414	160513
1203	144295	1256	148318	1309	152801	1362	156810	1415	160628

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1416	160712	1468	165432	1520	171183	1572	172789	1624	174659
1417	160917	1469	165564	1521	171186	1573	172794	1625	174687
1418	160952	1470	165664	1522	171201	1574	172816	1626	174694
1419	160982	1471	165974	1523	171286	1575	172866	1627	174720
1420	161053	1472	165984	1524	171392	1576	172884	1628	174772
1421	161068	1473	166104	1525	171397	1577	172893	1629	174811
1422	161147	1474	166305	1526	171453	1578	172905	1630	174840
1423	161164	1475	166311	1527	171456	1579	173022	1631	174842
1424	161167	1476	166451	1528	171487	1580	173031	1632	174921
1425	161245	1477	166500	1529	171488	1581	173185	1633	174977
1426	161253	1478	166535	1530	171503	1582	173221	1634	175024
1427	161465	1479	166586	1531	171510	1583	173257	1635	175046
1428	161475	1480	166710	1532	171513	1584	173306	1636	175082
1429	161501	1481	166897	1533	171521	1585	173319	1637	175091
1430	161518	1482	166924	1534	171540	1586	173371	1638	175116
1431	161561	1483	167236	1535	171541	1587	173426	1639	175124
1432	161650	1484	167388	1536	171573	1588	173447	1640	175156
1433	161736	1485	167444	1537	171648	1589	173459	1641	175165
1434	161898	1486	167695	1538	171702	1590	173534	1642	175173
1435	161928	1487	167839	1539	171722	1591	173558	1643	175189
1436	161929	1488	168011	1540	171732	1592	173609	1644	175196
1437	162009	1489	168052	1541	171735	1593	173615	1645	175267
1438	162154	1490	168068	1542	171737	1594	173634	1646	175389
1439	162166	1491	168131	1543	171784	1595	173718	1647	175423
1440	162213	1492	168217	1544	171787	1596	173733	1648	175430
1441	162329	1493	168318	1545	171821	1597	173762	1649	175477
1442	162376	1494	168345	1546	171943	1598	173817	1650	175511
1443	162421	1495	168631	1547	171945	1599	173826	1651	175512
1444	163057	1496	168828	1548	172034	1600	173909	1652	175580
1445	163274	1497	168919	1549	172043	1601	173934	1653	175588
1446	163606	1498	169009	1550	172075	1602	173946	1654	175635
1447	163667	1499	169052	1551	172077	1603	173953	1655	175639
1448	163762	1500	169137	1552	172086	1604	173968	1656	175644
1449	163790	1501	169305	1553	172122	1605	174066	1657	175666
1450	163828	1502	169660	1554	172306	1606	174131	1658	175691
1451	163849	1503	169765	1555	172365	1607	174184	1659	175718
1452	163944	1504	169817	1556	172391	1608	174232	1660	175746
1453	164219	1505	169826	1557	172393	1609	174254	1661	175838
1454	164290	1506	169842	1558	172406	1610	174304	1662	175861
1455	164421	1507	170131	1559	172408	1611	174324	1663	175877
1456	164587	1508	170290	1560	172424	1612	174358	1664	175899
1457	164602	1509	170414	1561	172459	1613	174432	1665	175949
1458	164681	1510	170714	1562	172470	1614	174478	1666	175950
1459	164727	1511	170737	1563	172533	1615	174484	1667	175958
1460	164732	1512	170755	1564	172534	1616	174491	1668	175978
1461	164864	1513	170826	1565	172574	1617	174501	1669	175979
1462	165048	1514	170863	1566	172591	1618	174518	1670	175992
1463	165057	1515	170929	1567	172665	1619	174524	1671	176004
1464	165083	1516	170998	1568	172675	1620	174533	1672	176019
1465	165130	1517	171000	1569	172729	1621	174542	1673	176035
1466	165355	1518	171114	1570	172783	1622	174551	1674	176043
1467	165378	1519	171131	1571	172784	1623	174553	1675	176059

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1676	176140	1728	178079	1780	180083	1832	181887	1884	183806
1677	176155	1729	178115	1781	180087	1833	181934	1885	183819
1678	176163	1730	178127	1782	180124	1834	181959	1886	183869
1679	176248	1731	178129	1783	180149	1835	181960	1887	183911
1680	176271	1732	178169	1784	180170	1836	181973	1888	183916
1681	176346	1733	178195	1785	180283	1837	181997	1889	183920
1682	176385	1734	178280	1786	180287	1838	181999	1890	183937
1683	176398	1735	178293	1787	180290	1839	182032	1891	183984
1684	176423	1736	178355	1788	180299	1840	182035	1892	184030
1685	176472	1737	178366	1789	180361	1841	182093	1893	184040
1686	176478	1738	178368	1790	180365	1842	182104	1894	184063
1687	176550	1739	178407	1791	180367	1843	182137	1895	184199
1688	176749	1740	178423	1792	180389	1844	182181	1896	184253
1689	176839	1741	178424	1793	180530	1845	182186	1897	184255
1690	176855	1742	178434	1794	180565	1846	182213	1898	184268
1691	176921	1743	178529	1795	180582	1847	182242	1899	184282
1692	176936	1744	178548	1796	180651	1848	182274	1900	184288
1693	176956	1745	178584	1797	180657	1849	182296	1901	184320
1694	176966	1746	178608	1798	180666	1850	182316	1902	184393
1695	177052	1747	178669	1799	180680	1851	182318	1903	184405
1696	177053	1748	178715	1800	180684	1852	182320	1904	184433
1697	177068	1749	178737	1801	180734	1853	182392	1905	184446
1698	177087	1750	178743	1802	180802	1854	182439	1906	184486
1699	177091	1751	178760	1803	180807	1855	182465	1907	184559
1700	177137	1752	178871	1804	180814	1856	182491	1908	184586
1701	177230	1753	178897	1805	180841	1857	182574	1909	184641
1702	177242	1754	178966	1806	180901	1858	182579	1910	184765
1703	177264	1755	179009	1807	180912	1859	182585	1911	184783
1704	177270	1756	179054	1808	180915	1860	182612	1912	184796
1705	177281	1757	179115	1809	180918	1861	182661	1913	184800
1706	177312	1758	179183	1810	180956	1862	182664	1914	184827
1707	177410	1759	179208	1811	181103	1863	182744	1915	184829
1708	177415	1760	179232	1812	181227	1864	182763	1916	184873
1709	177442	1761	179290	1813	181236	1865	182835	1917	184887
1710	177454	1762	179296	1814	181262	1866	183065	1918	184900
1711	177514	1763	179333	1815	181378	1867	183126	1919	184924
1712	177565	1764	179409	1816	181384	1868	183180	1920	184925
1713	177598	1765	179436	1817	181420	1869	183201	1921	184928
1714	177604	1766	179536	1818	181432	1870	183255	1922	184980
1715	177618	1767	179578	1819	181435	1871	183274	1923	184984
1716	177661	1768	179586	1820	181436	1872	183326	1924	185035
1717	177666	1769	179590	1821	181437	1873	183348	1925	185044
1718	177684	1770	179658	1822	181537	1874	183391	1926	185075
1719	177697	1771	179692	1823	181548	1875	183468	1927	185094
1720	177734	1772	179730	1824	181560	1876	183500	1928	185096
1721	177762	1773	179738	1825	181565	1877	183511	1929	185184
1722	177795	1774	179777	1826	181607	1878	183588	1930	185219
1723	177834	1775	179786	1827	181627	1879	183602	1931	185467
1724	177846	1776	179920	1828	181655	1880	183624	1932	185525
1725	177856	1777	179978	1829	181716	1881	183670	1933	185539
1726	177941	1778	180015	1830	181735	1882	183691	1934	185568
1727	178045	1779	180075	1831	181762	1883	183760	1935	185602

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1936	185746	1988	187352	2040	189657	2092	191535	2144	193256
1937	185752	1989	187354	2041	189662	2093	191542	2145	193309
1938	185760	1990	187447	2042	189724	2094	191543	2146	193328
1939	185763	1991	187468	2043	189822	2095	191553	2147	193365
1940	185774	1992	187586	2044	189823	2096	191568	2148	193378
1941	185812	1993	187718	2045	189824	2097	191584	2149	193387
1942	185817	1994	187753	2046	189851	2098	191607	2150	193399
1943	185852	1995	187807	2047	189867	2099	191610	2151	193419
1944	185861	1996	187830	2048	189873	2100	191626	2152	193453
1945	185878	1997	187845	2049	189920	2101	191707	2153	193513
1946	186002	1998	187848	2050	189995	2102	191752	2154	193526
1947	186006	1999	187890	2051	190019	2103	191756	2155	193540
1948	186011	2000	187936	2052	190020	2104	191768	2156	193545
1949	186050	2001	187955	2053	190076	2105	191818	2157	193546
1950	186072	2002	187961	2054	190080	2106	191882	2158	193565
1951	186078	2003	187963	2055	190082	2107	191906	2159	193580
1952	186119	2004	188099	2056	190093	2108	191933	2160	193634
1953	186282	2005	188188	2057	190098	2109	191950	2161	193638
1954	186301	2006	188207	2058	190138	2110	192091	2162	193717
1955	186307	2007	188316	2059	190202	2111	192109	2163	193825
1956	186329	2008	188340	2060	190270	2112	192162	2164	193865
1957	186370	2009	188371	2061	190298	2113	192172	2165	193871
1958	186375	2010	188386	2062	190305	2114	192244	2166	193993
1959	186383	2011	188446	2063	190354	2115	192255	2167	194103
1960	186387	2012	188471	2064	190360	2116	192260	2168	194129
1961	186393	2013	188499	2065	190414	2117	192374	2169	194229
1962	186398	2014	188562	2066	190423	2118	192390	2170	194278
1963	186436	2015	188618	2067	190443	2119	192404	2171	194287
1964	186478	2016	188631	2068	190472	2120	192519	2172	194376
1965	186483	2017	188640	2069	190489	2121	192556	2173	194450
1966	186497	2018	188641	2070	190513	2122	192558	2174	194492
1967	186518	2019	188644	2071	190522	2123	192560	2175	194554
1968	186538	2020	188709	2072	190560	2124	192576	2176	194583
1969	186585	2021	188753	2073	190590	2125	192581	2177	194613
1970	186604	2022	188771	2074	190761	2126	192617	2178	194639
1971	186632	2023	188810	2075	190765	2127	192645	2179	194653
1972	186650	2024	188843	2076	190815	2128	192709	2180	194693
1973	186653	2025	188869	2077	190963	2129	192714	2181	194742
1974	186777	2026	188889	2078	190971	2130	192727	2182	194767
1975	186837	2027	188891	2079	190979	2131	192732	2183	194796
1976	186921	2028	188907	2080	190993	2132	192796	2184	194851
1977	186986	2029	189009	2081	191028	2133	192837	2185	194916
1978	187035	2030	189088	2082	191121	2134	192843	2186	194917
1979	187071	2031	189089	2083	191203	2135	192950	2187	194956
1980	187081	2032	189224	2084	191340	2136	193015	2188	195025
1981	187168	2033	189354	2085	191351	2137	193098	2189	195040
1982	187175	2034	189359	2086	191354	2138	193118	2190	195070
1983	187178	2035	189403	2087	191402	2139	193140	2191	195080
1984	187205	2036	189459	2088	191427	2140	193143	2192	195086
1985	187291	2037	189470	2089	191456	2141	193158	2193	195186
1986	187318	2038	189492	2090	191508	2142	193165	2194	195196
1987	187342	2039	189633	2091	191529	2143	193221	2195	195412

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2196	195460	2248	197471	2300	199483	2352	201792	2404	203439
2197	195461	2249	197478	2301	199495	2353	201815	2405	203446
2198	195531	2250	197521	2302	199524	2354	201828	2406	203461
2199	195562	2251	197553	2303	199574	2355	201861	2407	203661
2200	195598	2252	197564	2304	199626	2356	201907	2408	203745
2201	195602	2253	197605	2305	199649	2357	201982	2409	203881
2202	195629	2254	197621	2306	199835	2358	202008	2410	203897
2203	195652	2255	197675	2307	199890	2359	202021	2411	203900
2204	195733	2256	197677	2308	199979	2360	202025	2412	203949
2205	195735	2257	197688	2309	200029	2361	202036	2413	203957
2206	195774	2258	197721	2310	200037	2362	202062	2414	203963
2207	195865	2259	197776	2311	200047	2363	202177	2415	203964
2208	195881	2260	197879	2312	200051	2364	202190	2416	203981
2209	195916	2261	197902	2313	200082	2365	202230	2417	204028
2210	196017	2262	197968	2314	200176	2366	202332	2418	204075
2211	196089	2263	198013	2315	200209	2367	202335	2419	204102
2212	196221	2264	198102	2316	200218	2368	202341	2420	204171
2213	196228	2265	198106	2317	200258	2369	202356	2421	204191
2214	196231	2266	198136	2318	200284	2370	202363	2422	204235
2215	196246	2267	198140	2319	200295	2371	202384	2423	204279
2216	196248	2268	198163	2320	200324	2372	202400	2424	204305
2217	196251	2269	198189	2321	200369	2373	202459	2425	204363
2218	196296	2270	198196	2322	200474	2374	202471	2426	204366
2219	196340	2271	198218	2323	200505	2375	202489	2427	204432
2220	196454	2272	198244	2324	200539	2376	202524	2428	204433
2221	196489	2273	198252	2325	200671	2377	202567	2429	204441
2222	196578	2274	198271	2326	200700	2378	202581	2430	204445
2223	196585	2275	198366	2327	200718	2379	202643	2431	204487
2224	196618	2276	198379	2328	200719	2380	202669	2432	204510
2225	196631	2277	198390	2329	200781	2381	202820	2433	204521
2226	196639	2278	198393	2330	200782	2382	202834	2434	204629
2227	196683	2279	198470	2331	200872	2383	202856	2435	204739
2228	196704	2280	198474	2332	200958	2384	202873	2436	204784
2229	196708	2281	198522	2333	200991	2385	202886	2437	204794
2230	196714	2282	198591	2334	201069	2386	202959	2438	204849
2231	196762	2283	198662	2335	201094	2387	203016	2439	204853
2232	196834	2284	198761	2336	201144	2388	203087	2440	204886
2233	196856	2285	198813	2337	201211	2389	203147	2441	204900
2234	196860	2286	198878	2338	201218	2390	203148	2442	204906
2235	196926	2287	198888	2339	201227	2391	203161	2443	204925
2236	196950	2288	198895	2340	201230	2392	203168	2444	204932
2237	197052	2289	199074	2341	201253	2393	203182	2445	204948
2238	197072	2290	199119	2342	201259	2394	203240	2446	204950
2239	197115	2291	199128	2343	201320	2395	203303	2447	204991
2240	197134	2292	199175	2344	201343	2396	203325	2448	205043
2241	197201	2293	199176	2345	201534	2397	203335	2449	205073
2242	197260	2294	199190	2346	201547	2398	203347	2450	205138
2243	197317	2295	199256	2347	201590	2399	203349	2451	205171
2244	197379	2296	199267	2348	201652	2400	203365	2452	205236
2245	197384	2297	199383	2349	201728	2401	203402	2453	205305
2246	197403	2298	199436	2350	201784	2402	203403	2454	205329
2247	197433	2299	199473	2351	201791	2403	203404	2455	205340

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2456	205347	2508	206891	2560	208977	2612	210934	2664	213689
2457	205351	2509	206939	2561	208999	2613	210952	2665	213811
2458	205364	2510	207036	2562	209007	2614	211013	2666	213919
2459	205372	2511	207082	2563	209041	2615	211029	2667	214034
2460	205460	2512	207083	2564	209075	2616	211081	2668	214085
2461	205470	2513	207099	2565	209142	2617	211124	2669	214179
2462	205512	2514	207115	2566	209173	2618	211167	2670	214418
2463	205546	2515	207124	2567	209207	2619	211183	2671	214431
2464	205547	2516	207183	2568	209211	2620	211295	2672	214434
2465	205568	2517	207209	2569	209316	2621	211322	2673	214480
2466	205587	2518	207249	2570	209336	2622	211358	2674	214547
2467	205668	2519	207311	2571	209412	2623	211378	2675	214577
2468	205672	2520	207318	2572	209457	2624	211452	2676	214811
2469	205690	2521	207352	2573	209533	2625	211453	2677	214931
2470	205694	2522	207360	2574	209551	2626	211511	2678	215063
2471	205705	2523	207420	2575	209556	2627	211561	2679	215111
2472	205730	2524	207441	2576	209625	2628	211660	2680	215121
2473	205741	2525	207477	2577	209664	2629	211673	2681	215152
2474	205746	2526	207540	2578	209681	2630	211700	2682	215190
2475	205824	2527	207548	2579	209698	2631	211702	2683	215222
2476	205853	2528	207574	2580	209754	2632	211715	2684	215266
2477	205864	2529	207613	2581	209764	2633	211722	2685	215410
2478	205941	2530	207615	2582	209817	2634	211783	2686	215537
2479	205944	2531	207629	2583	209839	2635	211785	2687	215553
2480	206003	2532	207755	2584	209901	2636	211928	2688	215677
2481	206019	2533	207793	2585	210094	2637	212006	2689	215738
2482	206029	2534	207822	2586	210179	2638	212018	2690	215795
2483	206088	2535	207823	2587	210202	2639	212031	2691	215927
2484	206099	2536	207918	2588	210224	2640	212065	2692	216038
2485	206106	2537	207935	2589	210238	2641	212100	2693	216062
2486	206113	2538	207961	2590	210261	2642	212182	2694	216093
2487	206153	2539	208072	2591	210266	2643	212231	2695	216140
2488	206273	2540	208173	2592	210271	2644	212255	2696	216173
2489	206326	2541	208183	2593	210290	2645	212297	2697	216208
2490	206332	2542	208220	2594	210313	2646	212319	2698	216340
2491	206355	2543	208295	2595	210328	2647	212321	2699	216446
2492	206388	2544	208379	2596	210332	2648	212362	2700	216458
2493	206410	2545	208383	2597	210364	2649	212433	2701	216516
2494	206486	2546	208388	2598	210366	2650	212445	2702	216530
2495	206517	2547	208437	2599	210380	2651	212458	2703	216547
2496	206533	2548	208439	2600	210428	2652	212582	2704	216582
2497	206565	2549	208525	2601	210432	2653	212584	2705	216727
2498	206630	2550	208578	2602	210454	2654	212629	2706	216813
2499	206662	2551	208603	2603	210500	2655	212653	2707	216877
2500	206686	2552	208661	2604	210515	2656	212663	2708	216896
2501	206719	2553	208686	2605	210696	2657	212919	2709	216912
2502	206724	2554	208799	2606	210734	2658	213260	2710	216983
2503	206730	2555	208801	2607	210743	2659	213304	2711	217073
2504	206736	2556	208846	2608	210837	2660	213522	2712	217305
2505	206767	2557	208907	2609	210874	2661	213536	2713	217327
2506	206823	2558	208924	2610	210879	2662	213600	2714	217485
2507	206890	2559	208948	2611	210902	2663	213616	2715	217496

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2716	217513	2768	221339	2820	225581	2872	229868	2924	233946
2717	217566	2769	221478	2821	225913	2873	229891	2925	233952
2718	217600	2770	221510	2822	225919	2874	230035	2926	233973
2719	217686	2771	221536	2823	226124	2875	230182	2927	234092
2720	217700	2772	221949	2824	226129	2876	230201	2928	234144
2721	217719	2773	222227	2825	226155	2877	230202	2929	234194
2722	217844	2774	222462	2826	226212	2878	230203	2930	234287
2723	217852	2775	222484	2827	226231	2879	230212	2931	234332
2724	217912	2776	222536	2828	226238	2880	230249	2932	234358
2725	217917	2777	222775	2829	226274	2881	230285	2933	234370
2726	217938	2778	222809	2830	226353	2882	230463	2934	234417
2727	217943	2779	222863	2831	226366	2883	230621	2935	234462
2728	218009	2780	222864	2832	226422	2884	230635	2936	234468
2729	218075	2781	222888	2833	226424	2885	230817	2937	234474
2730	218125	2782	223072	2834	226438	2886	230845	2938	234481
2731	218231	2783	223292	2835	226487	2887	230862	2939	234605
2732	218240	2784	223313	2836	226611	2888	230866	2940	234658
2733	218304	2785	223360	2837	226616	2889	230992	2941	234680
2734	218402	2786	223451	2838	226618	2890	231032	2942	234719
2735	218404	2787	223517	2839	226655	2891	231110	2943	234732
2736	218479	2788	223521	2840	226794	2892	231275	2944	234735
2737	218491	2789	223625	2841	226860	2893	231403	2945	234755
2738	218572	2790	223674	2842	226873	2894	231425	2946	234769
2739	218618	2791	223883	2843	226956	2895	231534	2947	234801
2740	218678	2792	224003	2844	226979	2896	231571	2948	234915
2741	218698	2793	224040	2845	227015	2897	231925	2949	234967
2742	218719	2794	224245	2846	227044	2898	232105	2950	235052
2743	218866	2795	224340	2847	227263	2899	232239	2951	235130
2744	218988	2796	224438	2848	227284	2900	232448	2952	235135
2745	219091	2797	224476	2849	227402	2901	232613	2953	235155
2746	219131	2798	224485	2850	227436	2902	232694	2954	235301
2747	219158	2799	224556	2851	227574	2903	232722	2955	235306
2748	219243	2800	224591	2852	227719	2904	232790	2956	235323
2749	219244	2801	224607	2853	228121	2905	232801	2957	235516
2750	219273	2802	224650	2854	228274	2906	232937	2958	235528
2751	219463	2803	224686	2855	228316	2907	233003	2959	235674
2752	219480	2804	224750	2856	228350	2908	233036	2960	235727
2753	219503	2805	224881	2857	228351	2909	233090	2961	235911
2754	219525	2806	224894	2858	228569	2910	233161	2962	235934
2755	219732	2807	224924	2859	228586	2911	233239	2963	236038
2756	219733	2808	224969	2860	228802	2912	233255	2964	236054
2757	219874	2809	225068	2861	228973	2913	233292	2965	236058
2758	220401	2810	225084	2862	228988	2914	233413	2966	236083
2759	220534	2811	225094	2863	229074	2915	233424	2967	236151
2760	220543	2812	225183	2864	229075	2916	233492	2968	236162
2761	220602	2813	225220	2865	229190	2917	233573	2969	236325
2762	220655	2814	225227	2866	229224	2918	233606	2970	236405
2763	220728	2815	225252	2867	229252	2919	233624	2971	236443
2764	220807	2816	225482	2868	229317	2920	233693	2972	236570
2765	220849	2817	225541	2869	229414	2921	233841	2973	236571
2766	221128	2818	225550	2870	229590	2922	233846	2974	236616
2767	221314	2819	225576	2871	229730	2923	233907	2975	236634

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
2976	236638	3028	238940	3080	241422	3132	243880	3184	246302
2977	236659	3029	239040	3081	241442	3133	243891	3185	246350
2978	236718	3030	239043	3082	241463	3134	243977	3186	246418
2979	236720	3031	239047	3083	241488	3135	244185	3187	246583
2980	236808	3032	239049	3084	241602	3136	244260	3188	246716
2981	236834	3033	239055	3085	241680	3137	244292	3189	246729
2982	236850	3034	239083	3086	241757	3138	244299	3190	246739
2983	236993	3035	239092	3087	241842	3139	244370	3191	246797
2984	237048	3036	239125	3088	241892	3140	244435	3192	246838
2985	237083	3037	239135	3089	241950	3141	244471	3193	246950
2986	237116	3038	239155	3090	241957	3142	244482	3194	247083
2987	237207	3039	239254	3091	241990	3143	244595	3195	247101
2988	237208	3040	239311	3092	242041	3144	244637	3196	247138
2989	237223	3041	239332	3093	242062	3145	244647	3197	247159
2990	237234	3042	239380	3094	242083	3146	244714	3198	247200
2991	237260	3043	239403	3095	242121	3147	244768	3199	247214
2992	237331	3044	239445	3096	242132	3148	244786	3200	247249
2993	237407	3045	239447	3097	242147	3149	244800	3201	247309
2994	237486	3046	239578	3098	242187	3150	244872	3202	247402
2995	237490	3047	239871	3099	242204	3151	244879	3203	247617
2996	237507	3048	239880	3100	242206	3152	244971	3204	247655
2997	237567	3049	239936	3101	242217	3153	244979	3205	247842
2998	237572	3050	239961	3102	242237	3154	245040	3206	247849
2999	237656	3051	240170	3103	242289	3155	245045	3207	247856
3000	237693	3052	240171	3104	242310	3156	245143	3208	247889
3001	237736	3053	240181	3105	242340	3157	245158	3209	247896
3002	237750	3054	240239	3106	242352	3158	245185	3210	247923
3003	237806	3055	240294	3107	242360	3159	245237	3211	248036
3004	237922	3056	240360	3108	242619	3160	245295	3212	248084
3005	237969	3057	240456	3109	242644	3161	245345	3213	248129
3006	238099	3058	240646	3110	242765	3162	245354	3214	248139
3007	238137	3059	240658	3111	242769	3163	245596	3215	248140
3008	238162	3060	240670	3112	242817	3164	245597	3216	248149
3009	238297	3061	240675	3113	242898	3165	245600	3217	248161
3010	238331	3062	240718	3114	242961	3166	245605	3218	248175
3011	238332	3063	240746	3115	242978	3167	245645	3219	248211
3012	238431	3064	240764	3116	243015	3168	245666	3220	248254
3013	238448	3065	240793	3117	243033	3169	245699	3221	248261
3014	238467	3066	240818	3118	243054	3170	245714	3222	248293
3015	238484	3067	240830	3119	243081	3171	245730	3223	248335
3016	238490	3068	240903	3120	243144	3172	245754	3224	248408
3017	238513	3069	240952	3121	243287	3173	245808	3225	248446
3018	238547	3070	240979	3122	243324	3174	245829	3226	248476
3019	238586	3071	241013	3123	243344	3175	245960	3227	248566
3020	238619	3072	241151	3124	243443	3176	246012	3228	248575
3021	238667	3073	241202	3125	243549	3177	246016	3229	248598
3022	238672	3074	241220	3126	243602	3178	246102	3230	248632
3023	238683	3075	241236	3127	243763	3179	246117	3231	248679
3024	238794	3076	241286	3128	243774	3180	246141	3232	248834
3025	238811	3077	241328	3129	243798	3181	246143	3233	248842
3026	238839	3078	241351	3130	243827	3182	246184	3234	248890
3027	238916	3079	241401	3131	243833	3183	246301	3235	248951

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3236	249087	3288	252050	3340	254347	3392	256533	3444	259178
3237	249197	3289	252068	3341	254369	3393	256623	3445	259338
3238	249203	3290	252093	3342	254464	3394	256766	3446	259372
3239	249295	3291	252199	3343	254509	3395	256779	3447	259555
3240	249310	3292	252227	3344	254656	3396	256784	3448	259569
3241	249420	3293	252236	3345	254706	3397	256803	3449	259599
3242	249494	3294	252250	3346	254709	3398	256886	3450	259681
3243	249595	3295	252281	3347	254757	3399	256902	3451	259704
3244	249691	3296	252388	3348	254815	3400	256913	3452	259732
3245	249757	3297	252533	3349	254821	3401	256921	3453	259783
3246	249765	3298	252573	3350	254833	3402	257033	3454	259858
3247	249775	3299	252583	3351	254839	3403	257072	3455	259931
3248	249855	3300	252638	3352	254898	3404	257079	3456	260014
3249	249971	3301	252701	3353	255031	3405	257109	3457	260035
3250	250005	3302	252769	3354	255034	3406	257118	3458	260057
3251	250008	3303	252807	3355	255055	3407	257245	3459	260064
3252	250016	3304	252890	3356	255073	3408	257280	3460	260088
3253	250078	3305	252910	3357	255131	3409	257327	3461	260110
3254	250082	3306	252933	3358	255215	3410	257334	3462	260113
3255	250209	3307	252960	3359	255238	3411	257437	3463	260203
3256	250298	3308	252962	3360	255300	3412	257480	3464	260211
3257	250376	3309	253000	3361	255331	3413	257495	3465	260275
3258	250416	3310	253046	3362	255346	3414	257530	3466	260299
3259	250456	3311	253125	3363	255364	3415	257545	3467	260309
3260	250605	3312	253126	3364	255444	3416	257561	3468	260314
3261	250766	3313	253169	3365	255447	3417	257577	3469	260456
3262	250790	3314	253235	3366	255470	3418	257610	3470	260465
3263	250808	3315	253267	3367	255502	3419	257655	3471	260510
3264	250818	3716	253460	3368	255526	3420	257736	3472	260533
3265	250837	3317	253477	3369	255595	3421	257740	3473	260540
3266	250898	3318	253550	3370	255598	3422	257752	3474	260587
3267	251126	3319	253555	3371	255633	3423	257834	3475	260636
3268	251170	3320	253559	3372	255645	3424	257955	3476	260726
3269	251261	3321	253598	3373	255666	3425	257994	3477	260739
3270	251293	3322	253622	3374	255699	3426	258086	3478	260840
3271	251297	3323	253644	3375	255702	3427	258195	3479	260859
3272	251372	3324	253698	3376	255721	3428	258304	3480	260896
3273	251380	3325	253734	3377	255728	3429	258395	3481	261023
3274	251502	3326	253756	3378	255795	3430	258447	3482	261071
3275	251564	3327	253808	3379	255831	3431	258520	3483	261181
3276	251579	3328	253811	3380	255848	3432	258524	3484	261192
3277	251583	3329	253886	3381	255952	3433	258741	3485	261346
3278	251614	3330	253932	3382	255962	3434	258745	3486	261404
3279	251615	3331	253968	3383	256031	3435	258788	3487	261507
3280	251634	3332	253983	3384	256121	3436	258802	3488	261673
3281	251710	3333	254107	3385	256160	3437	258805	3489	261717
3282	251761	3334	254120	3386	256177	3438	258822	3490	261720
3283	251768	3335	254149	3387	256181	3439	258897	3491	261728
3284	251944	3336	254152	3388	256242	3440	258911	3492	261911
3285	251953	3337	254185	3389	256302	3441	259016	3493	261953
3286	251954	3338	254265	3390	256379	3442	259063	3494	262065
3287	252020	3339	254316	3391	256532	3443	259087	3495	262094

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3496	262102	3548	265160	3600	269348	3652	271958	3704	276562
3497	262188	3549	265224	3601	269403	3653	271987	3705	276808
3498	262223	3550	265234	3602	269435	3654	272083	3706	276842
3499	262261	3551	265235	3603	269468	3655	272086	3707	276874
3500	262291	3552	265278	3604	269473	3656	272099	3708	276913
3501	262406	3553	265335	3605	269542	3657	272109	3709	277035
3502	262524	3554	265404	3606	269681	3658	272111	3710	277101
3503	262582	3555	265440	3607	269691	3659	272174	3711	277334
3504	262620	3556	265442	3608	269721	3660	272338	3712	277567
3505	262634	3557	265454	3609	269863	3661	272378	3713	277569
3506	262692	3558	265463	3610	269897	3662	272496	3714	277613
3507	262705	3559	265477	3611	269948	3663	272701	3715	277628
3508	262712	3560	265648	3612	270038	3664	272717	3716	277658
3509	262749	3561	265683	3613	270097	3665	273095	3717	277732
3510	262771	3562	265804	3614	270135	3666	273826	3718	277934
3511	262783	3563	265811	3615	270245	3667	273852	3719	277937
3512	262804	3564	265828	3616	270356	3668	273884	3720	278056
3513	262810	3565	265908	3617	270377	3669	273902	3721	278071
3514	262831	3566	266522	3618	270391	3670	273946	3722	278132
3515	262941	3567	266659	3619	270396	3671	273979	3723	278313
3516	262984	3568	266717	3620	270423	3672	274013	3724	278495
3517	262988	3569	266737	3621	270518	3673	274198	3725	278565
3518	262992	3570	267018	3622	270523	3674	274233	3726	278573
3519	263159	3571	267035	3623	270548	3675	274461	3727	278579
3520	263186	3572	267222	3624	270579	3676	274656	3728	278649
3521	263313	3573	267262	3625	270670	3677	274704	3729	278653
3522	263438	3574	267285	3626	270680	3678	274851	3730	278677
3523	263494	3575	267424	3627	270742	3679	275046	3731	278798
3524	263533	3576	267468	3628	270794	3680	275066	3732	278986
3525	263556	3577	267538	3629	270805	3681	275256	3733	279011
3526	263598	3578	267608	3630	270875	3682	275372	3734	279085
3527	263740	3579	267696	3631	270877	3683	275381	3735	279161
3528	263747	3580	268002	3632	270881	3684	275384	3736	279241
3529	263755	3581	268009	3633	270930	3685	275685	3737	279249
3530	263762	3582	268160	3634	271028	3686	275686	3738	279339
3531	263788	3583	268161	3635	271135	3687	275699	3739	279402
3532	263954	3584	268223	3636	271240	3688	275775	3740	279416
3533	264100	3585	268329	3637	271329	3689	275918	3741	279538
3534	264230	3586	268348	3638	271334	3690	275964	3742	279539
3535	264260	3587	268545	3639	271359	3691	275984	3743	279671
3536	264300	3588	268613	3640	271377	3692	276064	3744	280013
3537	264355	3589	268766	3641	271436	3693	276088	3745	280060
3538	264453	3590	268808	3642	271490	3694	276156	3746	280186
3539	264500	3591	268996	3643	271541	3695	276160	3747	280327
3540	264564	3592	269001	3644	271548	3696	276211	3748	280336
3541	264568	3593	269028	3645	271612	3697	276255	3749	280362
3542	264641	3594	269037	3646	271640	3698	276330	3750	280373
3543	264714	3595	269254	3647	271687	3699	276375	3751	280468
3544	264755	3596	269255	3648	271702	3700	276462	3752	280851
3545	265066	3597	269258	3649	271751	3701	276467	3753	280935
3546	265081	3598	269260	3650	271778	3702	276498	3754	281146
3547	265146	3599	269340	3651	271897	3703	276531	3755	281255

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
3756	281306	3808	285084	3860	289011	3912	295632	3964	301561
3757	281382	3809	285161	3861	289041	3913	295907	3965	301745
3758	281426	3810	285189	3862	289045	3914	296293	3966	301775
3759	281512	3811	285238	3863	289120	3915	296505	3967	301787
3760	281514	3812	285239	3864	289227	3916	296559	3968	301796
3761	281538	3813	285291	3865	289374	3917	296620	3969	301817
3762	281683	3814	285306	3866	289473	3918	296644	3970	301829
3763	281705	3815	285307	3867	289553	3919	296673	3971	301869
3764	281729	3816	285322	3868	289740	3920	296754	3972	301885
3765	281822	3817	285366	3869	289751	3921	296898	3973	301890
3766	282145	3818	285371	3870	289785	3922	296924	3974	301974
3767	282213	3819	285428	3871	289824	3923	296959	3975	302068
3768	282283	3820	285437	3872	289829	3924	296970	3976	302178
3769	282347	3821	285459	3873	290403	3925	297039	3977	302203
3770	282463	3822	285531	3874	290614	3926	297243	3978	302324
3771	282682	3823	285674	3875	290642	3927	297266	3979	302333
3772	282743	3824	285725	3876	290820	3928	297270	3980	302401
3773	282789	3825	285914	3877	290921	3929	297433	3981	302443
3774	282791	3826	285942	3878	291137	3930	297556	3982	302471
3775	282837	3827	286047	3879	291166	3931	297583	3983	302539
3776	282855	3828	286074	3880	291276	3932	297927	3984	302571
3777	282920	3829	286136	3881	291404	3933	297986	3985	302576
3778	282991	3830	286288	3882	291409	3934	298054	3986	302578
3779	282999	3831	286603	3883	291417	3935	298180	3987	302640
3780	283139	3832	286682	3884	291468	3936	298269	3988	302672
3781	283166	3833	286717	3885	291487	3937	298376	3989	302805
3782	283232	3834	286775	3886	291779	3938	298477	3990	302811
3783	283353	3835	286796	3887	291922	3939	298781	3991	302869
3784	283392	3836	286813	3888	292043	3940	298820	3992	302893
3785	283418	3837	287025	3889	292258	3941	298852	3993	302925
3786	283442	3838	287073	3890	292339	3942	298945	3994	302943
3787	283443	3839	287239	3891	292441	3943	298948	3995	302948
3788	283447	3840	287298	3892	292466	3944	299019	3996	302960
3789	283460	3841	287374	3893	292674	3945	299299	3997	302965
3790	283565	3842	287474	3894	292834	3946	299315	3998	302966
3791	283658	3843	287547	3895	292835	3947	299622	3999	302990
3792	283793	3844	287677	3896	292836	3948	299867	4000	303006
3793	283921	3845	287770	3897	292865	3949	299868	4001	303108
3794	283957	3846	287808	3898	293073	3950	300038	4002	303161
3795	283992	3847	287852	3899	293089	3951	300142	4003	303352
3796	284183	3848	287979	3900	293341	3952	300298	4004	303481
3797	284440	3849	288002	3901	293879	3953	300712	4005	303509
3798	284443	3850	288025	3902	293894	3954	300966	4006	303585
3799	284453	3851	288081	3903	293914	3955	301003	4007	303702
3800	284572	3852	288396	3904	294130	3956	301213	4008	303703
3801	284643	3853	288553	3905	294177	3957	301270	4009	303721
3802	284644	3854	288601	3906	294188	3958	301346	4010	303725
3803	284654	3855	288688	3907	294310	3959	301373	4011	303799
3804	284662	3856	288779	3908	294373	3960	301415	4012	303937
3805	284689	3857	288796	3909	294598	3961	301474	4013	304038
3806	284851	3858	288893	3910	295000	3962	301553	4014	304097
3807	284901	3859	288955	3911	295002	3963	301554	4015	304354

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4016	304427	4068	307840	4120	310392	4172	313477	4224	319116
4017	304476	4069	307878	4121	310398	4173	313611	4225	319221
4018	304482	4070	307903	4122	310415	4174	313666	4226	319295
4019	304495	4071	307911	4123	310438	4175	313751	4227	319337
4020	304540	4072	307924	4124	310482	4176	313799	4228	319421
4021	304544	4073	307960	4125	310632	4177	313855	4229	319577
4022	304661	4074	307986	4126	310662	4178	313917	4230	319643
4023	304731	4075	307992	4127	310760	4179	314248	4231	319829
4024	304894	4076	308017	4128	310923	4180	314438	4232	319857
4025	304930	4077	308031	4129	310963	4181	314462	4233	319881
4026	304936	4078	308092	4130	311130	4182	314922	4234	319918
4027	304993	4079	308110	4131	311139	4183	314965	4235	320384
4028	305053	4080	308122	4132	311210	4184	315103	4236	320432
4029	305086	4081	308318	4133	311249	4185	315151	4237	320445
4030	305091	4082	308358	4134	311253	4186	315230	4238	320480
4031	305108	4083	308373	4135	311345	4187	315374	4239	320590
4032	305169	4084	308393	4136	311417	4188	315388	4240	320791
4033	305245	4085	308397	4137	311481	4189	315541	4241	320938
4034	305346	4086	308402	4138	311654	4190	315612	4242	320967
4035	305534	4087	308462	4139	311708	4191	315688	4243	321210
4036	305577	4088	308521	4140	311826	4192	315861	4244	321241
4037	305698	4089	308535	4141	311856	4193	315872	4245	321462
4038	305715	4090	308586	4142	311967	4194	315908	4246	321666
4039	305989	4091	308613	4143	312094	4195	316247	4247	321837
4040	306026	4092	308642	4144	312097	4196	316329	4248	321871
4041	306079	4093	308734	4145	312171	4197	316352	4249	321942
4042	306085	4094	308786	4146	312224	4198	316605	4250	322013
4043	306261	4095	308872	4147	312246	4199	316783	4251	322039
4044	306399	4096	308898	4148	312262	4200	316932	4252	322178
4045	306422	4097	308935	4149	312302	4201	316937	4253	322196
4046	306567	4098	309021	4150	312363	4202	317200	4254	322293
4047	306586	4099	309060	4151	312392	4203	317247	4255	322382
4048	306631	4100	309164	4152	312394	4204	317252	4256	322502
4049	306751	4101	309237	4153	312597	4205	317278	4257	322512
4050	306785	4102	309276	4154	312665	4206	317282	4258	322578
4051	306837	4103	309287	4155	312715	4207	317383	4259	322663
4052	307133	4104	309328	4156	312724	4208	317518	4260	322679
4053	307181	4105	309376	4157	312735	4209	317639	4261	322688
4054	307190	4106	309507	4158	312877	4210	317789	4262	322730
4055	307325	4107	309621	4159	312916	4211	317920	4263	322763
4056	307460	4108	309699	4160	312932	4212	318054	4264	322837
4057	307496	4109	309724	4161	312944	4213	318055	4265	323011
4058	307518	4110	309756	4162	312998	4214	318089	4266	323015
4059	307573	4111	309794	4163	313045	4215	318102	4267	323070
4060	307588	4112	309819	4164	313179	4216	318444	4268	323096
4061	307595	4113	309853	4165	313196	4217	318568	4269	323179
4062	307616	4114	309931	4166	313251	4218	318587	4270	323203
4063	307627	4115	309955	4167	313268	4219	318596	4271	323279
4064	307690	4116	309981	4168	313296	4220	318965	4272	323343
4065	307693	4117	310030	4169	313382	4221	319003	4273	323407
4066	307770	4118	310269	4170	313457	4222	319004	4274	323430
4067	307831	4119	310324	4171	313466	4223	319047	4275	323435

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4276	323488	4328	326930	4380	329579	4432	332258	4484	334692
4277	323490	4329	327040	4381	329670	4433	332271	4485	334924
4278	323528	4330	327044	4382	329797	4434	332412	4486	335012
4279	323601	4331	327069	4383	329832	4435	332524	4487	335013
4280	323634	4332	327102	4384	329865	4436	332549	4488	335067
4281	323693	4333	327145	4385	329949	4437	332556	4489	335215
4282	324004	4334	327297	4386	329959	4438	332582	4490	335236
4283	324330	4335	327399	4387	330115	4439	332711	4491	335307
4284	324411	4336	327441	4388	330134	4440	332720	4492	335345
4285	324442	4337	327461	4389	330184	4441	332776	4493	335454
4286	324460	4338	327463	4390	330217	4442	332825	4494	335513
4287	324768	4339	327477	4391	330265	4443	332830	4495	335567
4288	324804	4340	327558	4392	330298	4444	332867	4496	335712
4289	324857	4341	327591	4393	330370	4445	332915	4497	335729
4290	324971	4342	327675	4394	330420	4446	332937	4498	335910
4291	325048	4343	327732	4395	330473	4447	333125	4499	335940
4292	325054	4344	327766	4396	330487	4448	333180	4500	335943
4293	325150	4345	327782	4397	330512	4449	333206	4501	335986
4294	325222	4346	327832	4398	330600	4450	333229	4502	336124
4295	325272	4347	327907	4399	330619	4451	333265	4503	336154
4296	325357	4348	327989	4400	330700	4452	333291	4504	336207
4297	325373	4349	328048	4401	330731	4453	333355	4505	336223
4298	325477	4350	328115	4402	330770	4454	333366	4506	336284
4299	325523	4351	328137	4403	330836	4455	333549	4507	336343
4300	325551	4352	328146	4404	330837	4456	333604	4508	336362
4301	325690	4353	328170	4405	330882	4457	333719	4509	336453
4302	325908	4354	328254	4406	330920	4458	333735	4510	336458
4303	325941	4355	328273	4407	330927	4459	333754	4511	336503
4304	325944	4356	328310	4408	331031	4460	333786	4512	336679
4305	325953	4357	328331	4409	331061	4461	333794	4513	336799
4306	325956	4358	328411	4410	331076	4462	333805	4514	336864
4307	325968	4359	328577	4411	331094	4463	333839	4515	336876
4308	325979	4360	328582	4412	331278	4464	333866	4516	336879
4309	325987	4361	328607	4413	331401	4465	333902	4517	336957
4310	326050	4362	328629	4414	331458	4466	333970	4518	336958
4311	326128	4363	328696	4415	331545	4467	334008	4519	336982
4312	326186	4364	328715	4416	331563	4468	334046	4520	337124
4313	326228	4365	328720	4417	331578	4469	334051	4521	337219
4314	326247	4366	328833	4418	331669	4470	334083	4522	337238
4315	326320	4367	328842	4419	331757	4471	334088	4523	337366
4316	326339	4368	328868	4420	331758	4472	334103	4524	337378
4317	326356	4369	328872	4421	331777	4473	334182	4525	337404
4318	326367	4370	328919	4422	331810	4474	334208	4526	337458
4319	326411	4371	328967	4423	331819	4475	334297	4527	337664
4320	326495	4372	329225	4424	331856	4476	334308	4528	337672
4321	326496	4373	329243	4425	331865	4477	334450	4529	337763
4322	326525	4374	329307	4426	331911	4478	334526	4530	337785
4323	326572	4375	329322	4427	331943	4479	334540	4531	337911
4324	326683	4376	329371	4428	332081	4480	334555	4532	337943
4325	326691	4377	329380	4429	332089	4481	334625	4533	337958
4326	326701	4378	329423	4430	332245	4482	334664	4534	338027
4327	326924	4379	329461	4431	332253	4483	334674	4535	338081

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4536	338158	4588	340297	4640	343070	4692	345784	4744	348618
4537	338297	4589	340311	4641	343176	4693	345792	4745	348672
4538	338391	4590	340319	4642	343193	4694	345866	4746	348759
4539	338454	4591	340357	4643	343211	4695	346121	4747	348799
4540	338489	4592	340373	4644	343301	4696	346207	4748	348891
4541	338491	4593	340467	4645	343359	4697	346321	4749	349068
4542	338523	4594	340518	4646	343422	4698	346324	4750	349126
4543	338526	4595	340524	4647	343465	4699	346348	4751	349208
4544	338576	4596	340603	4648	343513	4700	346361	4752	349273
4545	338640	4597	340605	4649	343548	4701	346396	4753	349356
4546	338727	4598	340644	4650	343591	4702	346443	4754	349382
4547	338829	4599	340657	4651	343644	4703	346449	4755	349456
4548	338860	4600	340788	4652	343652	4704	346596	4756	349532
4549	338869	4601	340851	4653	343656	4705	346648	4757	349599
4550	338887	4602	340878	4654	343712	4706	346651	4758	349661
4551	338981	4603	340892	4655	343732	4707	346699	4759	349703
4552	338982	4604	340931	4656	343742	4708	346810	4760	349736
4553	338995	4605	340992	4657	343840	4709	346822	4761	349843
4554	339070	4606	341075	4658	343905	4710	346829	4762	349844
4555	339097	4607	341094	4659	344022	4711	346843	4763	349856
4556	339101	4608	341110	4660	344126	4712	346913	4764	349929
4557	339112	4609	341133	4661	344149	4713	346926	4765	349996
4558	339116	4610	341168	4662	344151	4714	346959	4766	350107
4559	339139	4611	341203	4663	344178	4715	347087	4767	350225
4560	339201	4612	341261	4664	344214	4716	347155	4768	350277
4561	339258	4613	341388	4665	344294	4717	347179	4769	350373
4562	339260	4614	341431	4666	344299	4718	347206	4770	350428
4563	339264	4615	341442	4667	344344	4719	347213	4771	350539
4564	339294	4616	341511	4668	344388	4720	347248	4772	350544
4565	339320	4617	341608	4669	344447	4721	347318	4773	350551
4566	339325	4618	341619	4670	344526	4722	347358	4774	350606
4567	339328	4619	341643	4671	344765	4723	347364	4775	350633
4568	339491	4620	341959	4672	344792	4724	347405	4776	350730
4569	339493	4621	341981	4673	344826	4725	347437	4777	350859
4570	339577	4622	342031	4674	344849	4726	347495	4778	350901
4571	339656	4623	342045	4675	344929	4727	347540	4779	350931
4572	339716	4624	342062	4676	344965	4728	347555	4780	350982
4573	339782	4625	342167	4677	344967	4729	347611	4781	351197
4574	339795	4626	342247	4678	345024	4730	347653	4782	351209
4575	339838	4627	342366	4679	345035	4731	347689	4783	351295
4576	339889	4628	342375	4680	345049	4732	347738	4784	351390
4577	339895	4629	342411	4681	345052	4733	347775	4785	351399
4578	339936	4630	342417	4682	345263	4734	347924	4786	351438
4579	339944	4631	342430	4683	345336	4735	347988	4787	351444
4580	339966	4632	342588	4684	345366	4736	348109	4788	351448
4581	339978	4633	342735	4685	345530	4737	348174	4789	351456
4582	340026	4634	342754	4686	345565	4738	348273	4790	351604
4583	340035	4635	342804	4687	345597	4739	348306	4791	351617
4584	340039	4636	342810	4688	345628	4740	348317	4792	351764
4585	340147	4637	342830	4689	345682	4741	348338	4793	351907
4586	340174	4638	342926	4690	345689	4742	348429	4794	351942
4587	340258	4639	342987	4691	345729	4743	348543	4795	351972

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
4796	352004	4848	355913	4900	358840	4952	361557	5004	364004
4797	352007	4849	355923	4901	358937	4953	361680	5005	364011
4798	352014	4850	356038	4902	358949	4954	361724	5006	364066
4799	352079	4851	356054	4903	359063	4955	361748	5007	364076
4800	352156	4852	356097	4904	359136	4956	361786	5008	364148
4801	352164	4853	356111	4905	359143	4957	361820	5009	364192
4802	352223	4854	356200	4906	359275	4958	361835	5010	364231
4803	352395	4855	356230	4907	359281	4959	361840	5011	364245
4804	352419	4856	356286	4908	359500	4960	361861	5012	364256
4805	352449	4857	356627	4909	359509	4961	361988	5013	364299
4806	352477	4858	356687	4910	359651	4962	362079	5014	364303
4807	352503	4859	356821	4911	359697	4963	362089	5015	364318
4808	352570	4860	356880	4912	359754	4964	362128	5016	364404
4809	352759	4861	356968	4913	359803	4965	362168	5017	364408
4810	352775	4862	356997	4914	360041	4966	362247	5018	364803
4811	352777	4863	357118	4915	360153	4967	362251	5019	364821
4812	352861	4864	357301	4916	360177	4968	362308	5020	364857
4813	353010	4865	357313	4917	360327	4969	362359	5021	364861
4814	353082	4866	357353	4918	360329	4970	362518	5022	364906
4815	353103	4867	357370	4919	360392	4971	362572	5023	364971
4816	353277	4868	357384	4920	360441	4972	362641	5024	365032
4817	353499	4869	357549	4921	360491	4973	362677	5025	365039
4818	353528	4870	357599	4922	360530	4974	362762	5026	365053
4819	353545	4871	357707	4923	360564	4975	362778	5027	365062
4820	353546	4872	357828	4924	360687	4976	362875	5028	365070
4821	353571	4873	357854	4925	360697	4977	362883	5029	365180
4822	353604	4874	357884	4926	360777	4978	362935	5030	365228
4823	353658	4875	357886	4927	360805	4979	362944	5031	365233
4824	353672	4876	357898	4928	360883	4980	362960	5032	365291
4825	353773	4877	357962	4929	360906	4981	362975	5033	365312
4826	353793	4878	358069	4930	360910	4982	362983	5034	365320
4827	353972	4879	358095	4931	360959	4983	363169	5035	365487
4828	354035	4880	358116	4932	360964	4984	363179	5036	365488
4829	354106	4881	358159	4933	360966	4985	363180	5037	365596
4830	354143	4882	358162	4934	361035	4986	363223	5038	365709
4831	354153	4883	358168	4935	361105	4987	363292	5039	365733
4832	354189	4884	358198	4936	361111	4988	363375	5040	365910
4833	354211	4885	358238	4937	361127	4989	363434	5041	365984
4834	354225	4886	358240	4938	361152	4990	363592	5042	365990
4835	354275	4887	358241	4939	361230	4991	363614	5043	366071
4836	354511	4888	358326	4940	361232	4992	363690	5044	366185
4837	354805	4889	358342	4941	361256	4993	363696	5045	366223
4838	354817	4890	358399	4942	361279	4994	363712	5046	366229
4839	354841	4891	358494	4943	361288	4995	363736	5047	366237
4840	355016	4892	358500	4944	361289	4996	363738	5048	366249
4841	355164	4893	358529	4945	361338	4997	363739	5049	366283
4842	355237	4894	358606	4946	361386	4998	363777	5050	366324
4843	355488	4895	358701	4947	361387	4999	363803	5051	366376
4844	355516	4896	358725	4948	361456	5000	363827	5052	366430
4845	355522	4897	358806	4949	361482	5001	363860	5053	366578
4846	355817	4898	358821	4950	361517	5002	363901	5054	366610
4847	355862	4899	358835	4951	361552	5003	363937	5055	366622

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5056	366634	5108	369216	5160	371722	5212	377181	5264	382151
5057	366688	5109	369346	5161	372001	5213	377390	5265	382182
5058	366813	5110	369415	5162	372050	5214	377600	5266	382230
5059	366860	5111	369653	5163	372522	5215	377893	5267	382249
5060	366889	5112	369719	5164	372536	5216	377921	5268	382267
5061	366958	5113	369738	5165	372635	5217	378309	5269	382310
5062	367010	5114	369863	5166	372753	5218	378320	5270	382343
5063	367059	5115	369868	5167	372760	5219	378347	5271	382345
5064	367061	5116	369879	5168	372939	5220	378358	5272	382357
5065	367164	5117	369925	5169	373241	5221	378471	5273	382389
5066	367165	5118	370026	5170	373515	5222	378593	5274	382639
5067	367185	5119	370058	5171	373540	5223	378666	5275	382843
5068	367227	5120	370143	5172	373703	5224	379087	5276	382844
5069	367285	5121	370148	5173	373706	5225	379122	5277	382891
5070	367320	5122	370153	5174	373737	5226	379254	5278	382921
5071	367336	5123	370189	5175	373777	5227	379263	5279	382990
5072	367427	5124	370227	5176	373877	5228	379707	5280	383022
5073	367554	5125	370274	5177	373910	5229	379974	5281	383046
5074	367562	5126	370283	5178	373948	5230	380038	5282	383106
5075	367657	5127	370309	5179	373974	5231	380047	5283	383185
5076	367786	5128	370319	5180	373980	5232	380062	5284	383271
5077	368020	5129	370335	5181	374075	5233	380349	5285	383364
5078	368024	5130	370339	5182	374106	5234	380365	5286	383402
5079	368045	5131	370342	5183	374181	5235	380699	5287	383419
5080	368053	5132	370451	5184	374349	5236	380825	5288	383472
5081	368062	5133	370551	5185	374364	5237	380858	5289	383534
5082	368139	5134	370602	5186	374409	5238	380873	5290	383575
5083	368141	5135	370616	5187	374424	5239	380945	5291	383822
5084	368150	5136	370709	5188	374497	5240	381045	5292	383908
5085	368216	5137	370713	5189	374508	5241	381098	5293	383954
5086	368246	5138	370748	5190	374702	5242	381135	5294	384019
5087	368265	5139	370818	5191	374754	5243	381354	5295	384068
5088	368267	5140	370838	5192	374967	5244	381399	5296	384262
5089	368269	5141	370864	5193	375017	5245	381496	5297	384333
5090	368395	5142	370867	5194	375189	5246	381544	5298	384341
5091	368429	5143	370871	5195	375198	5247	381545	5299	384354
5092	368544	5144	370920	5196	375256	5248	381572	5300	384355
5093	368587	5145	371049	5197	375273	5249	381591	5301	384384
5094	368684	5146	371063	5198	375291	5250	381595	5302	384387
5095	368694	5147	371083	5199	375390	5251	381633	5303	384405
5096	368798	5148	371188	5200	375580	5252	381650	5304	384483
5097	368832	5149	371240	5201	375598	5253	381700	5305	384511
5098	368842	5150	371247	5202	375711	5254	381739	5306	384519
5099	368944	5151	371287	5203	375772	5255	381848	5307	384561
5100	368972	5152	371316	5204	375781	5256	381872	5308	384563
5101	368973	5153	371388	5205	375873	5257	381909	5309	384569
5102	368984	5154	371425	5206	375901	5258	381915	5310	384601
5103	369012	5155	371481	5207	375964	5259	381949	5311	384611
5104	369116	5156	371517	5208	376202	5260	382015	5312	384633
5105	369120	5157	371590	5209	376296	5261	382058	5313	384646
5106	369124	5158	371591	5210	376903	5262	382064	5314	384807
5107	369181	5159	371608	5211	377179	5263	382146	5315	384914

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5316	384940	5368	389164	5420	394231	5472	398272	5524	401811
5317	385144	5369	389190	5421	394237	5473	398319	5525	401840
5318	385190	5370	389403	5422	394263	5474	398331	5526	401941
5319	385201	5371	389423	5423	394557	5475	398435	5527	402099
5320	385442	5372	389570	5424	394637	5476	398562	5528	402133
5321	385589	5373	389656	5425	394641	5477	398599	5529	402159
5322	385593	5374	389674	5426	394829	5478	398616	5530	402330
5323	385679	5375	389691	5427	394858	5479	398693	5531	402432
5324	385817	5376	389716	5428	394876	5480	398739	5532	402495
5325	385989	5377	389820	5429	395089	5481	399009	5533	402615
5326	386305	5378	389828	5430	395233	5482	399047	5534	402634
5327	386311	5379	389852	5431	395299	5483	399126	5535	402805
5328	386333	5380	389876	5432	395357	5484	399153	5536	402806
5329	386399	5381	389940	5433	395392	5485	399158	5537	02833
5330	386417	5382	390020	5434	395412	5486	399160	5538	402834
5331	386479	5383	390150	5435	395487	5487	399287	5539	402855
5332	386500	5384	390200	5436	395494	5488	399346	5540	402879
5333	386606	5385	390232	5437	395557	5489	399441	5541	402919
5334	386670	5386	390356	5438	395657	5490	399493	5542	402954
5335	386698	5387	390547	5439	395659	5491	399499	5543	403046
5336	386880	5388	390695	5440	395688	5492	399587	5544	403121
5337	387192	5389	390853	5441	395883	5493	399611	5545	403251
5338	387461	5390	390920	5442	395909	5494	399701	5546	403345
5339	387472	5391	391002	5443	395922	5495	399708	5547	403447
5340	387492	5392	391112	5444	396007	5496	399749	5548	403526
5341	387503	5393	391316	5445	396051	5497	399767	5549	403926
5342	387581	5394	391334	5446	396339	5498	399875	5550	403943
5343	387738	5395	391379	5447	396414	5499	399901	5551	404132
5344	387780	5396	391448	5448	396468	5500	399970	5552	404164
5345	387887	5397	391671	5449	396518	5501	400189	5553	404172
5346	387993	5398	391961	5450	396559	5502	400234	5554	404191
5347	388120	5399	391998	5451	396561	5503	400274	5555	404258
5348	388206	5400	392063	5452	396599	5504	400320	5556	404408
5349	388330	5401	392087	5453	396738	5505	400362	5557	404431
5350	388335	5402	392165	5454	396853	5506	400481	5558	404518
5351	388373	5403	392247	5455	397019	5507	400487	5559	404520
5352	388416	5404	392268	5456	397472	5508	400514	5560	404528
5353	388442	5405	392385	5457	397499	5509	400557	5561	404603
5354	388498	5406	392443	5458	397566	5510	400637	5562	404636
5355	388614	5407	392715	5459	397661	5511	400723	5563	404708
5356	388681	5408	392982	5460	397674	5512	400761	5564	404900
5357	388784	5409	393001	5461	397698	5513	401013	5565	404921
5358	388822	5410	393166	5462	397702	5514	401089	5566	404978
5359	388846	5411	393371	5463	397721	5515	401229	5567	405032
5360	388907	5412	393535	5464	397878	5516	401338	5568	405102
5361	388982	5413	393610	5465	398120	5517	401363	5569	405192
5362	388998	5414	393976	5466	398136	5518	401472	5570	405437
5363	389044	5415	394020	5467	398160	5519	401494	5571	405473
5364	389074	5416	394044	5468	398206	5520	401542	5572	405630
5365	389101	5417	394069	5469	398212	5521	401601	5573	405645
5366	389115	5418	394108	5470	398220	5522	401789	5574	405651
5367	389131	5419	394214	5471	398237	5523	401798	5575	405838

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5576	406100	5628	409819	5680	415770	5732	419113	5784	424066
5577	406314	5629	410041	5681	415822	5733	419263	5785	424085
5578	406337	5630	410051	5682	415892	5734	419339	5786	424208
5579	406454	5631	410121	5683	415932	5735	419506	5787	424284
5580	406460	5632	410175	5684	415953	5736	419734	5788	424299
5581	406462	5633	410283	5685	415956	5737	419876	5789	424323
5582	406565	5634	410661	5686	415959	5738	419904	5790	424351
5583	406668	5635	410680	5687	416007	5739	419981	5791	424352
5584	406682	5636	411017	5688	416017	5740	420227	5792	424396
5585	406701	5637	411081	5689	416037	5741	420329	5793	424433
5586	406765	5638	411229	5690	416128	5742	420396	5794	424464
5587	406770	5639	411259	5691	416131	5743	420399	5795	424485
5588	406826	5640	411515	5692	416277	5744	420575	5796	424503
5589	406856	5641	411589	5693	416302	5745	420748	5797	424547
5590	407085	5642	411663	5694	416326	5746	420874	5798	424566
5591	407289	5643	411927	5695	416505	5747	420877	5799	424575
5592	407381	5644	411958	5696	416593	5748	420900	5800	424616
5593	407469	5645	412060	5697	416597	5749	420998	5801	424673
5594	407489	5646	412189	5698	416633	5750	421331	5802	424679
5595	407511	5647	412267	5699	416774	5751	421368	5803	424725
5596	407757	5648	412362	5700	416784	5752	421481	5804	424739
5597	407808	5649	412488	5701	416992	5753	421658	5805	424747
5598	407838	5650	412673	5702	417005	5754	421801	5806	425000
5599	407846	5651	412738	5703	417010	5755	421957	5807	425015
5600	407934	5652	412789	5704	417055	5756	421984	5808	425092
5601	408056	5653	412916	5705	417096	5757	422007	5809	425115
5602	408080	5654	412934	5706	417111	5758	422064	5810	425147
5603	408105	5655	413081	5707	417211	5759	422170	5811	425281
5604	408231	5656	413467	5708	417465	5760	422602	5812	425327
5605	408379	5657	413606	5709	417470	5761	422739	5813	425379
5606	408526	5658	413766	5710	417482	5762	422804	5814	425405
5607	408540	5659	413853	5711	417585	5763	422813	5815	425555
5608	408611	5660	414111	5712	417603	5764	423149	5816	425576
5609	408622	5661	414278	5713	417787	5765	423206	5817	425624
5610	408893	5662	414297	5714	417820	5766	423242	5818	425646
5611	408932	5663	414349	5715	417907	5767	423316	5819	425683
5612	409004	5664	414438	5716	417913	5768	423358	5820	425687
5613	409123	5665	414656	5717	417997	5769	423367	5821	425700
5614	409205	5666	414670	5718	418005	5770	423399	5822	425717
5615	409215	5667	414742	5719	418199	5771	423467	5823	425726
5616	409295	5668	414777	5720	418203	5772	423493	5824	425746
5617	409296	5669	414847	5721	418218	5773	423538	5825	425768
5618	409309	5670	414858	5722	418229	5774	423566	5826	425944
5619	409375	5671	414973	5723	418259	5775	423589	5827	425987
5620	409401	5672	414975	5724	418311	5776	423603	5828	426077
5621	409454	5673	415129	5725	418485	5777	423606	5829	426254
5622	409530	5674	415167	5726	418489	5778	423727	5830	426287
5623	409538	5675	415182	5727	418555	5779	423782	5831	426421
5624	409555	5676	415320	5728	418567	5780	423789	5832	426495
5625	409599	5677	415509	5729	418578	5781	423797	5833	426516
5626	409602	5678	415653	5730	418728	5782	424018	5834	426566
5627	409675	5679	415724	5731	418818	5783	424035	5835	426593

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
5836	426619	5888	430404	5940	435554	5992	439935	6044	444793
5837	426694	5889	430565	5941	435584	5993	439936	6045	444797
5838	426724	5890	430589	5942	435599	5994	440123	6046	444807
5839	426737	5891	430750	5943	435673	5995	440187	6047	444808
5840	426751	5892	430915	5944	435703	5996	440427	6048	444814
5841	426754	5893	430925	5945	435776	5997	440430	6049	444815
5842	426843	5894	431111	5946	435823	5998	440449	6050	444823
5843	426848	5895	431238	5947	435841	5999	440743	6051	444866
5844	426894	5896	431293	5948	436011	6000	440802	6052	444876
5845	426913	5897	431310	5949	436035	6001	441067	6053	444879
5846	426930	5898	431351	5950	436052	6002	441097	6054	444928
5847	426996	5899	431371	5951	436092	6003	441258	6055	444967
5848	427058	5900	431442	5952	436383	6004	441411	6056	444980
5849	427061	5901	431474	5953	436454	6005	441506	6057	445003
5850	427072	5902	431513	5954	436538	6006	441594	6058	445050
5851	427112	5903	431544	5955	436625	6007	441658	6059	445105
5852	427167	5904	431711	5956	436788	6008	442003	6060	445232
5853	427188	5905	431757	5957	436829	6009	442221	6061	445255
5854	427265	5906	431809	5958	436843	6010	442279	6062	445273
5855	427326	5907	431811	5959	436849	6011	442327	6063	445430
5856	427362	5908	431934	5960	436855	6012	442339	6064	445431
5857	427394	5909	431939	5961	436861	6013	442466	6065	445642
5858	427416	5910	431940	5962	436890	6014	442781	6066	445837
5859	427430	5911	431994	5963	436992	6015	442786	6067	445892
5860	427457	5912	432149	5964	437108	6016	442789	6068	445930
5861	427496	5913	432397	5965	437134	6017	442814	6069	445947
5862	427562	5914	432423	5966	437156	6018	442844	6070	446095
5863	427590	5915	432445	5967	437164	6019	442898	6071	446162
5864	427610	5916	432447	5968	437168	6020	442937	6072	446173
5865	427883	5917	432677	5969	437284	6021	442938	6073	446269
5866	428083	5918	432753	5970	437294	6022	442965	6074	446340
5867	428298	5919	432964	5971	437303	6023	443065	6075	446342
5868	428394	5920	433187	5972	437331	6024	443146	6076	446424
5869	428447	5921	433190	5973	437401	6025	443412	6077	446469
5870	428914	5922	433359	5974	437463	6026	443494	6078	446532
5871	428992	5923	433378	5975	437739	6027	443656	6079	446593
5872	429085	5924	433482	5976	437745	6028	443694	6080	446596
5873	429228	5925	433669	5977	437830	6029	443724	6081	446643
5874	429279	5926	433944	5978	437902	6030	443762	6082	446689
5875	429290	5927	434024	5979	437919	6031	443773	6083	446705
5876	429364	5928	434400	5980	438128	6032	443777	6084	446728
5877	429477	5929	434445	5981	438145	6033	443823	6085	446815
5878	429478	5930	434678	5982	438169	6034	443853	6086	446822
5879	429505	5931	434686	5983	438311	6035	443952	6087	446839
5880	429507	5932	434886	5984	438602	6036	444036	6088	446958
5881	429720	5933	434891	5985	438752	6037	444210	6089	447010
5882	429924	5934	434892	5986	439250	6038	444376	6090	447043
5883	429946	5935	434920	5987	439293	6039	444398	6091	447204
5884	430100	5936	434967	5988	439376	6040	444645	6092	447257
5885	430196	5937	435002	5989	439792	6041	444662	6093	447313
5886	430226	5938	435072	5990	439797	6042	444730	6094	447320
5887	430260	5939	435111	5991	439836	6043	444776	6095	447386

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6096	447629	6148	451682	6200	455801	6252	460279	6304	465609
6097	447677	6149	451689	6201	455898	6253	460536	6305	465640
6098	447695	6150	451725	6202	456034	6254	460572	6306	465735
6099	447714	6151	451729	6203	456080	6255	460620	6307	465769
6100	447803	6152	451772	6204	456148	6256	460718	6308	465943
6101	447929	6153	451811	6205	456190	6257	460829	6309	466123
6102	447948	6154	451823	6206	456211	6258	461015	6310	466165
6103	447964	6155	451888	6207	456259	6259	461058	6311	466229
6104	448131	6156	451979	6208	456292	6260	461163	6312	466294
6105	448280	6157	452016	6209	456332	6261	461192	6313	466524
6106	448311	6158	452039	6210	456336	6262	461246	6314	466740
6107	448474	6159	452112	6211	456388	6263	461339	6315	466762
6108	448583	6160	452183	6212	456401	6264	461480	6316	466919
6109	448592	6161	452201	6213	456562	6265	461536	6317	466972
6110	448716	6162	452265	6214	456645	6266	461554	6318	467085
6111	448726	6163	452386	6215	456694	6267	462015	6319	467114
6112	448746	6164	452586	6216	456728	6268	462131	6320	467543
6113	448749	6165	452620	6217	456754	6269	462141	6321	467699
6114	448796	6166	452731	6218	456981	6270	462288	6322	467919
6115	448865	6167	452737	6219	456984	6271	462403	6323	467932
6116	448947	6168	452755	6220	457018	6272	462435	6324	467999
6117	448953	6169	452945	6221	457047	6273	462585	6325	468095
6118	449155	6170	453366	6222	457073	6274	462847	6326	468175
6119	449197	6171	453371	6223	457158	6275	462993	6327	468220
6120	449212	6172	453377	6224	457159	6276	462994	6328	468242
6121	449267	6173	453438	6225	457282	6277	463026	6329	468334
6122	449444	6174	453540	6226	457290	6278	463034	6330	468367
6123	449466	6175	453617	6227	457374	6279	463137	6331	468374
6124	449498	6176	453628	6228	457690	6280	463220	6332	468419
6125	449506	6177	453658	6229	457696	6281	463263	6333	468473
6126	449644	6178	453784	6230	457735	6282	463265	6334	468791
6127	449806	6179	453806	6231	457841	6283	463519	6335	468807
6128	449845	6180	453812	6232	458086	6284	463526	6336	468855
6129	449873	6181	453926	6233	458220	6285	463627	6337	468905
6130	450020	6182	453951	6234	458229	6286	463633	6338	468919
6131	450036	6183	454054	6235	458475	6287	463646	6339	469139
6132	450072	6184	454062	6236	458520	6288	463718	6340	469166
6133	450115	6185	454122	6237	458639	6289	463719	6341	469377
6134	450211	6186	454238	6238	458785	6290	464314	6342	469543
6135	450229	6187	454248	6239	459182	6291	464327	6343	469704
6136	450328	6188	454273	6240	459429	6292	464338	6344	469935
6137	450575	6189	454349	6241	459487	6293	464549	6345	470003
6138	450804	6190	454555	6242	459524	6294	464551	6346	470090
6139	450917	6191	454670	6243	459606	6295	464806	6347	470154
6140	450937	6192	455020	6244	459662	6296	464840	6348	470412
6141	450957	6193	455292	6245	459898	6297	464953	6349	470415
6142	451026	6194	455319	6246	459955	6298	465180	6350	471133
6143	451234	6195	455332	6247	459986	6299	465331	6351	471169
6144	451335	6196	455463	6248	459998	6300	465376	6352	471192
6145	451450	6197	455474	6249	460074	6301	465470	6353	471264
6146	451482	6198	455634	6250	460118	6302	465564	6354	471366
6147	451491	6199	455752	6251	460221	6303	465593	6355	471409

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
6356	471533	6406	475989	6456	479959	6506	487228	6556	492270
6357	471580	6407	476001	6457	480259	6507	487322	6557	492305
6358	471703	6408	476048	6458	480377	6508	487431	6558	492465
6359	471721	6409	476067	6459	480405	6509	487562	6559	492542
6360	471738	6410	476128	6460	480473	6510	487571	6560	492621
6361	471784	6411	476140	6461	480476	6511	487587	6561	492775
6362	472062	6412	476224	6462	480484	6512	487708	6562	492836
6363	472235	6413	476427	6463	480769	6513	487821	6563	492992
6364	472342	6414	476456	6464	480839	6514	487864	6564	493661
6365	472451	6415	476473	6465	480920	6515	487887	6565	493954
6366	472478	6416	476482	6466	481713	6516	487906	6566	493985
6367	472526	6417	476570	6467	482640	6517	487938	6567	494019
6368	472768	6418	476693	6468	483010	6518	488135	6568	494103
6369	472847	6419	477143	6469	483267	6519	488185	6569	494250
6370	472948	6420	477360	6470	483271	6520	488255	6570	495308
6371	472969	6421	477505	6471	483389	6521	488291		
6372	473039	6422	477664	6472	483481	6522	488311		
6373	473057	6423	477733	6473	483510	6523	488423		
6374	473298	6424	477807	6474	483552	6524	488590		
6375	473338	6425	477820	6475	483640	6525	488618		
6376	473385	6426	477821	6476	484271	6526	488651		
6377	473495	6427	477897	6477	484273	6527	488954		
6378	473575	6428	477926	6478	484441	6528	489007		
6379	473625	6429	477978	6479	484619	6529	489051		
6380	473757	6430	477983	6480	484646	6530	489073		
6381	473864	6431	478008	6481	484955	6531	489222		
6382	474027	6432	478173	6482	484963	6532	489362		
6383	474231	6433	478183	6483	485074	6533	489636		
6384	474372	6434	478288	6484	485203	6534	489676		
6385	474380	6435	478375	6485	485401	6535	489704		
6386	474430	6436	478488	6486	485946	6536	489919		
6387	474673	6437	478531	6487	485988	6537	489953		
6388	474685	6438	478532	6488	486012	6538	489996		
6389	474759	6439	478540	6489	486015	6539	490061		
6390	474785	6440	478939	6490	486095	6540	490110		
6391	474952	6441	478996	6491	486101	6541	490562		
6392	475007	6442	479100	6492	486143	6542	490903		
6393	475181	6443	479150	6493	486258	6543	491115		
6394	475383	6444	479180	6494	486260	6544	491450		
6395	475471	6445	479206	6495	486263	6545	491618		
6396	475493	6446	479254	6496	486294	6546	491662		
6397	475524	6447	479305	6497	486339	6547	491767		
6398	475711	6448	479481	6498	486435	6548	491827		
6399	475714	6449	479487	6499	486588	6549	491865		
6400	475722	6450	479497	6500	486633	6550	491896		
6401	475789	6451	479527	6501	486657	6551	491898		
6402	475851	6452	479535	6502	487000	6552	492116		
6403	475932	6453	479619	6503	487014	6553	492150		
6404	475952	6454	479760	6504	487090	6554	492221		
6405	475965	6455	479801	6505	487119	6555	492266		

राज्य सेवा परीक्षा-2012 विज्ञापन क्र. 03/परीक्षा/2012/01 अक्टूबर, 2012, विज्ञापन की कंडिका-06 अनर्हताएं के बिन्दु क्र.-11 (क) एवं (ख) एवं राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 की कंडिका-16 बिन्दु-07, 08,09 एवं 10 के अनुसार आयोग के निर्णय दिनांक 21 जून, 2013 अनुक्रमांक-425943 एवं अनुक्रमांक-324887 आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाती है।

- टीपः—** 1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2012 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2012 में अर्ह आवेदकों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 की लिखित परीक्षा दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से होगी. इस हेतु अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. अर्ह आवेदक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 में बैठने हेतु आवेदन-पत्र एम पी ऑनलाईन से दिनांक 01 जुलाई, 2013 से 25 जुलाई, 2013 तक भर सकेंगे. इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 29 जून, 2013 तक जारी कर दी जावेगी.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 लिखित परीक्षा के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायेंगे. इसकी प्रतिदिन जाँच की जावेगी.

श्रीकृष्ण शर्मा,
परीक्षा नियंत्रक.

(343-A)

विविध

निविदा सूचनाएं

ग्वालियर, दिनांक 27 जून, 2013

क्र. भण्डार/()/2013-14/2199A.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर की साफ-सफाई का कार्य ठेके पर देने हेतु संबंधित अनुभवी ठेकेदारों/व्यवसायियों से बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं.

2. निविदा पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2013 तक कार्यालयीन समय में निविदा पत्र का मूल्य रुपये 100.00 नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है.

3. निविदायें द्वि-लिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं. निविदा प्रपत्र क्रमांक 'क' में निविदा से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी एवं प्रमाण-पत्र एक लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे. निविदा प्रपत्र ख-I कमर्शियल निविदा में सफाई कार्य की वार्षिक दर स्पष्ट भरी जावे. यह दोनों निविदा पत्र भी पृथक्-पृथक् लिफाफों में आवश्यक पूर्तियां की जाकर पृथक् रखे जावें तथा उक्त सभी लिफाफों को एक लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत किया जावे.

4. निविदायें दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी एवं तकनीकी निविदा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जावेगी. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के समक्ष कमर्शियल निविदा बाद में खोली जायेगी.

विलास मंथनवार,
उप-नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
ग्वालियर.

(344)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, सिवनी मालवा

प्र.क्र. 1-बी/113(4) वर्ष 2011-13.

ग्राम हथनापुर, तहसील सिवनी मालवा

वजरिये इश्तहार मुनादी के सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री दुर्गानंद दादा धूनीवाले ट्रस्ट दरवार हथनापुर (आंवलीघाट क्षेत्र), तहसील सिवनी मालवा द्वारा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र गौर पिता हजारीलाल गौर, निवासी ग्राम आंवरी, तहसील डोलरिया एवं अन्य-4 की ओर मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत ग्राम हथनापुर की भूमि खसरा नं. 97, रकबा 5.00 एकड़ पर न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः आवेदक के उक्त आवेदन-पत्र के पंजीयन हेतु जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं/अभिभाषक/अधिकर्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 28 जून, 2013 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रातः 10.30 बजे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 28 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(337)

प्र.क्र. 2-बी/113(1) वर्ष 2007-08.

ग्राम भमेडीदेव, तहसील सिवनी मालवा

वजरिये इश्तहार मुनादी के सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बाबा रामदेव मंदिर समिति, भमेडीदेव (भीलटदेव), तहसील सिवनी मालवा द्वारा अध्यक्ष श्री मोहनलाल आत्मज जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, निवासी सिवनी मालवा ने ग्राम भमेडीदेव (भीलटदेव) न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत ग्राम भमेडीदेव की भूमि खसरा नं. 21/4, रकबा 0.28 एकड़ पर न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः आवेदक के उक्त आवेदन-पत्र के पंजीयन हेतु जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं/अभिभाषक/अधिकर्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 28 जून, 2013 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रातः 10.30 बजे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 28 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

प्रकाश सिंह चौहान,

अनुविभागीय अधिकारी.

(337-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग खण्डवा, जिला खण्डवा

जारी, दिनांक 4 जून, 2013

प्र. क्र./बी-113 (1)/2012-13.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक

न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि संत देवीदास गुरू बाबा श्यामदास, निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञापित के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	श्री पूज्य सद्गुरूबाबा नारायणदास साहब चेरीटेबल ट्रस्ट “तीरथ धाम”, टैगौर कॉलोनी, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति :	रुपये 31,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.

हरिसिंह चौधरी,

अनुविभागीय अधिकारी.

(338)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 17 जून, 2013

प्र.क्र. 02/बी-113/2012-13.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

लोक न्यासों के पंजीयक, जिला विदिशा के समक्ष.

श्री चौधरी मुनव्वर सलीम, अध्यक्ष एवं आमिर अंसारी, सचिव, मोहम्मद आजम खान एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31 जुलाई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 31 जुलाई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . मोहम्मद आजम खान एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, चौधरी हाउस, बड़ा बाजार, विदिशा, मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति . . . रु. 7,000/- मात्र नकद (जो कोषाध्यक्ष के पास जमा हैं, जिसे बाद में खाता खोलकर बैंक में जमा किया जावेगा).
3. अचल सम्पत्ति . . . न्यास की इस समय कोई अचल सम्पत्ति नहीं है.

अविनाश तिवारी,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(339)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री विनोद जैन,
प्रभारी अधिकारी,

सरला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

सरला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./798, दिनांक 01 सितम्बर, 1998 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(340)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013-आषाढ़ 14, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील कराहल (शयोपुर), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, बमोरी (गुना), जतारा (टीकमगढ़), बीना, देवरी, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), पाली (उमरिया), मझौली, चुरहट, रामपुर-नैकिन (सीधी), सुवासरा-टप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, सीतामऊ, शामगढ़ (मंदसौर), महिदपुर, घटिया, बड़नगर, नागदा (उज्जैन) विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), मझौली (जबलपुर), निवास, विछिया, मण्डला, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील आरोन, कुंभराज (गुना), खुरई, बण्डा, सागर, रहली, शाहगढ़ (सागर), मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहाबल, कुसमी (सीधी), खाचरोद, उज्जैन (उज्जैन), सिरोंज, नटेरन (विदिशा), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), नैनपुर (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.**—तहसील चाचोड़ा (गुना), गढ़ाकोटा (सागर), तराना (उज्जैन), बांधवगढ़ (उमरिया), लटेरी, कुरवाई, बासौदा (विदिशा), नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला शयोपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला शयोपुर, पन्ना व खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला धार में राई फसलों को 25 से 50% व भोपाल में गेहूँ, चना में 24% की हानि की सम्भावना कहीं-कहीं है.

5. **कटाई.**—जिला कटनी में फसल मसूर व झाबुआ, इन्दौर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना व डिण्डोरी में मसूर, मटर, गेहूँ, व नीमच में गेहूँ, चना, राई-सरसों तथा टीकमगढ़, अनूपपुर, विदिशा, हरदा, मण्डला, सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरेना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरेना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल 8.0 3. विजयपुर 8.0 ..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द अधिक. मूँगफली, तिली, मूँगमोट, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, सोयाबीन गन्ना, अधिक. गेहूँ, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	4.0				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	10.0				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	14.6				
2. राघोगढ़	11.0				
3. बमोरी	12.0				
4. आरोन	23.0				
5. चाचौड़ा	45.0				
6. कुम्भराज	25.0				
7. मकसूदनगढ़	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	7.0				
4. टीकमगढ़	7.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	16.4				
2. खुरई	32.7				
3. बण्डा	23.2				
4. सागर	33.0				
5. रेहली	34.0				
6. देवरी	16.0				
7. गढ़ाकोटा	38.0				
8. राहतगढ़	14.0				
9. केसली	17.0				
10. मालथोन	6.2				
11. शाहगढ़	22.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंधर	..		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियात	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.0		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. राहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	13.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	3.0				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	44.6		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	13.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	34.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	22.4		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर समान.	6. ..	8. ..
2. सिहावल	23.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	10.0				
4. कुसमी	20.0				
5. चुरहट	17.0				
6. रामपुरनैकिन	1.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) गेहूँ चना अधिक. सरसों कम. तुअर, मसूर, मटर, अलसी, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	5.3		4. (1) गेहूँ, रायडा अधिक. धना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	2.6		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	5.0				
4. गरोठ	13.2				
5. धुन्धड़का	..				
5. मन्दासौर	1.0				
6. सीतामऊ	4.2				
7. शामगढ़	15.3				
8. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, राई-सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	29.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	17.0		(2) ..		
3. तराना	37.0				
4. घटिया	12.0				
5. उज्जैन	33.0				
6. बड़नगर	7.0				
7. नागदा	10.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापपीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. भामरा	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. उदयगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	..	
3. अलीराजपुर	..				
4. राणापुर	..				
5. कट्टीबाड़ा	..				
6. सोण्डवा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. राई फसल में 25 से 50% नुकसान हुआ है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) चना अधिक, गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) . .		
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	..				
4. खरगोन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) कपास, गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2). उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	47.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	22.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	35.0				
4. बासौदा	38.2				
5. नटेरन	21.0				
6. विदिशा	12.0				
7. ग्यारसपुर	16.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की फसल में 24% की हानि की सम्भावना.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुर	..		(2) ..		
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	34.8		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	23.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	31.3				
4. मझौली	4.0				
5. कुण्डम	20.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. मसूर फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	1.9		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	14.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	28.7				
4. मण्डला	12.4				
5. घुघरी	1.5				
6. नारायणगंज	41.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मसूर, मटर, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	7.4		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	33.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला सतना, शहडोल, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(336)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.